



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]
No. 252]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 2007/फाल्गुन 21, 1928
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 2007/PHALGUNA 21, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2007

का.आ. 349(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1307(अ), तारीख 14 अगस्त, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-II (ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे) के 57.852 कि.मी. से 99.400 कि.मी. (गौतम बुद्ध नगर सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण अनुक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 26 अगस्त, 2006 को "दैनिक जागरण" और "राष्ट्रीय सहारा" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन ई -II के 57.852 कि०मी० से 99.400 कि०मी० (गौतमबुद्ध नगर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गौतमबुद्ध नगर	1 दादरी	(1) बिसाहड़ा	692/1	निजी	खेती	244.7	जी० एन० इलैक्टो प्लास्ट प्रा० लि० द्वारा श्री मधूसूदन शर्मा, श्री राम प्रकाश शर्मा निवासी सी 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली
				692/2	निजी	खेती	2258.2	जी० एन० इलैक्टो प्लास्ट प्रा० लि० द्वारा श्री मधूसूदन शर्मा, श्री राम प्रकाश शर्मा निवासी सी 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली
				693	निजी	खेती	24.3	लक्ष्मण, सुखवीर पुत्र गजराज, रणधीर, राजवीर पुत्र तुकती, प्रताप पुत्र जयसिंह, उदयवीर सिंह पुत्र बलवीरसिंह, राजसिंह, गिरराज सिंह, प्रेमसिंह, शिव कुमार पुत्र श्योराज, ओमवीर सिंह, ओमकार सिंह पुत्र रामभूल ग्रामवासी
				698	निजी	खेती	1505.6	रोहतास पुत्र मुसददी, दलीप सिंह, विजय सिंह पुत्र रेवती दल्लू नेपाल पुत्र दुर्गा ग्रामवासी
				699	निजी	खेती	3350.5	जय प्रकाश, विजयपाल, राजेन्द्र, राधेलाल पुत्र चिरंजी, वेद प्रकाश, जय प्रकाश पुत्र जमादार, प्रताप उर्फ प्रकाश चन्द पुत्र खेचूड़, रामभूल, रघुवर पुत्र मुसददी, सुरेशचन्द, ओमप्रकाश पुत्र हरनारायन व सन्तोष पुत्र छिददा ग्रामवासी
				700	निजी	खेती	8379.6	घेतराम पुत्र कालिया निवासी बम्बाबड जी० एन० इलैक्टो प्लास्ट प्रा० लि० द्वारा श्री मधूसूदन शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा निवासी सी 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली
				701	निजी	खेती	4058.0	धीरजसिंह, सूरजपाल उर्फ सरोजपाल, निरंजन सिंह व यशपाल सिंह, सुरेश सिंह पुत्र नानकसिंह, नानक सिंह पुत्र रामजीलाल व अरविन्द सिंह, आलोक सिंह पुत्र कटारसिंह ग्रामवासी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				702	निजी	खेती	1662.2	धीरजसिंह, सूरजपाल उर्फ सरोजपाल, निरंजन सिंह व यशपाल सिंह, सुरेश सिंह पुत्र नानकसिंह, नानक सिंह पुत्र रामजीलाल व अरविन्द सिंह, आलोक सिंह पुत्र कटारसिंह ग्रामवासी
				703	निजी	खेती	975.3	लक्खी सिंह पुत्र बहाल, श्यामू पुत्र श्यौनाथ, सुखपाल व कमल सिंह पुत्र रघुवीर, रोहतास सिंह व शीशपाल सिंह पुत्र विशनसिंह, सगुवा पुत्र बहाल व सिपट्टर पुत्र मलखान ग्रामवासी
				704/1	निजी	खेती	11945.0	हरीसिंह, सिन्धू पुत्र गजराज, रामवीर पुत्र राजवीर, चतरसिंह पुत्र नैपाल, चेताराम पुत्र कालिया, राजपाल, गजैसिंह, राजसिंह पुत्र चेताराम, ज्ञानेन्द्र सिंह व सुरेन्द्र सिंह पुत्र रतनलाल, नरेन्द्र सिंह, अजीत सिंह, रनसिंह, जगवीर सिंह, उदय सिंह पुत्र भगवत व श्रीमति रामकली बेवा स्व० भगवत नि० बम्बावड रोहन इलैक्टोनिक्स प्रा० लि० द्वारा श्री मधूसूदन शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा निवासी सी 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली
				704/2	निजी	खेती	169.8	हरीसिंह, सिन्धू पुत्र गजराज, रामवीर पुत्र राजवीर, चतरसिंह पुत्र नैपाल, चेताराम पुत्र कालिया, राजपाल, गजैसिंह, राजसिंह पुत्र चेताराम, ज्ञानेन्द्र सिंह व सुरेन्द्र सिंह पुत्र रतनलाल, नरेन्द्र सिंह, अजीत सिंह, रनसिंह, जगवीर सिंह, उदय सिंह पुत्र भगवत व श्रीमति रामकली बेवा स्व० भगवत नि० बम्बावड रोहन इलैक्टोनिक्स प्रा० लि० द्वारा श्री मधूसूदन शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा निवासी सी 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली
				705	सरकारी	नाली	740.7	
				707	निजी	खेती	1379.0	श्री मती कान्ती देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह निवासी ग्रामवासी, रोहन इलैक्टोनिक्स प्रा० लि० द्वारा श्री मधूसूदन शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा निवासी सी 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली दलीप पुत्र राजाराय, जगत सिंह व रामभूल पुत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								सिंह रामवती पत्नी गजैन्द्र सिंह, चमन सिंह सफदरजंग निवासी ग्रामवासी
				711	निजी	खेती	819.9	सिन्धु पुत्र गजराज, ममण्डर पुत्र राजवीर, चतरसिंह राजपाल, चतराम पुत्र कालिया, राजपाल, गजैसिंह, राजसिंह पुत्र सुरेन्द्र, शानेन्द्र सिंह व सुरेन्द्र सिंह पुत्र रतनलाल, नरेन्द्र सिंह, रतन सिंह, रनसिंह, जगवीर सिंह, उदय सिंह पुत्र भगवत व रामकली बेवा स्व० भगवत सुन्दर वड रोहन इलैक्टोनिक्स नि० द्वारा श्री मधूसूदन शर्मा श्री मागोपाल शर्मा निवासी सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली
				725	निजी	खेती	52.90	सती देवी पत्नी लेखराज सुन्दर पुत्र शयौदान व सुन्दर पुत्र नैनसिंह यादराम पुत्र गिरीजसिंह, मामराज सिंह राहब सिंह, पवन सिंह, राजपाल गणेशी पुत्र रिछपाल, सती बेवा गुरुप्रसाद, विश्व कुमार पुत्र चननराम गिरीजसिंह मन्शागढी भटिडा सुन्दर पुत्र रघुवीर, मुकन्दा पुत्र रोभन, महावीर पुत्र बिहारी, सुन्दर व अफलातून पुत्र नानक, विशेष कुमार, सुन्दर पुत्र यादराम सत्यवती देवी मागसिंह निवासी ग्रामवासी नि० एन० इलैक्टो प्लास्ट प्रा० नि० द्वारा श्री मधूसूदन शर्मा, श्री राम प्रकाश शर्मा निवासी सी 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली
				726	निजी	खेती	3709.1	मधूसूदन शर्मा पुत्र राम प्रकाश शर्मा नि० सी 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली, सती सिंह, राजपाल, गणेशी पुत्र रिछपाल व श्रीमति सत्यवती बेवा एन० मागसिंह, अशोक, विशेष कुमार जकमण सिंह पुत्र यादराम जिओलाल पुत्र हरसरन नि० दखनपुरा, तेजपाल, संजय, मनीष पुत्र जीतराम ग्रामवासी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				727	निजी	खेती	210.3	मुन्ना लाल पुत्र मंगल सैन नि० एफ०/132 प्रीत विहार नई दिल्ली, जगत सिंह पुत्र शीशपाल, मामराज पुत्र ढाल सिंह, राकेश पुत्र गोपाल, श्रीमति भगवती बेवा स्व० खिल्लू ग्रामवासी
				728	निजी	खेती	3155.2	खजान पुत्र होशियार, नेता, एदल पुत्र मटरू, श्रीराम पुत्र नरायण व महावीर आनन्दी, यादराम पुत्र एदल, पवन सिंह, राजपाल, गणेशी पुत्र रिछपाल ग्रामवासी, अरविन्द मलिक पुत्र देव दत्त मलिक नि० सी० 1/18 सफदर डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली
				730	निजी	खेती	739.5	ब्रहमपाल सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह नि० तिलपता करनवास
				732	निजी	खेती	168.4	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी लेखराज सिंह, लखपत पुत्र श्यौदान व श्यौराज पुत्र नैनसिंह यादराम पुत्र एदल गिरीजसिंह, मामराज सिंह पुत्र साहब सिंह, पवन सिंह, राजपाल गणेशी पुत्र रिछपाल, श्रीमती बल्ली बेबा गुरुप्रसाद, दिनेश कुमार पुत्र चमनराम निवासी मन्शागढी भटिडा (पंजाब), जगमाल पुत्र रघुवीर, मुकन्दा पुत्र रोभन, महावीर पुत्र बिहारी, ब्रहमा व अफलातून पुत्र नानक, अशोक, विशेष कुमार, लखमीचन्द पुत्र यादराम सत्यवती बेवा भागसिंह निवासी ग्रामवासी जी० एन० इलैक्टो प्लास्ट प्रा० लि० द्वाराश्री मधुसूदन शर्मा, श्री राम प्रकाश शर्मा निवासी सी 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली
				733	निजी	खेती	206.7	जय प्रकाश, विजयपाल, राजेन्द्र, राधेलाल पुत्र चिरंजी, वेद प्रकाश, जय प्रकाश पुत्र जमादार, प्रताप उर्फ प्रकाश चन्द पुत्र खेचूडू, रामभूल, रघुवर पुत्रगण मुसद्दी, सुरेशचन्द, ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण व सन्तोष पुत्र छिद्दा ग्रामवासी
				1052/1	निजी	खेती	8148.5	आसकरन पुत्र खचेडू, श्रीमति कान्ती पत्नी रामफल व सत्यवीर, चन्द्रपाल पुत्र रामफल, शान्ती देवी पत्नी हेमसिंह, हेमसिंह पुत्र खचेडू ग्रामवासी
				1059	निजी	खेती	212.6	हेमसिंह पुत्र खचेडू ग्रामवासी
				1065	निजी	खेती	95.8	रविन्द्र सिंह पुत्र मिश्रीलाल नि० दल्लूपुरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1066	निजी	खेती	1263.3	मगत पुत्र रामभूल व चन्द्रपाल सिंह, दलवीर सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र श्यामलाल ग्रामवासी
				1067	निजी	खेती	3158.7	ब्रह्मपाल सिंह पुत्र चन्दर पाल सिंह नि० तिलपता करनवास, हेमसिंह पुत्र खचेडू ग्रामवासी
				1068	निजी	खेती	1817.6	ब्रह्मपाल सिंह पुत्र चन्दर पाल सिंह नि० तिलपता करनवास, हेमसिंह पुत्र खचेडू ग्रामवासी
				1069	निजी	खेती	2639.9	हेमसिंह पुत्र खचेडू, श्रीमति शान्ती पत्नी हेमसिंह, श्याम सिंह पुत्र कृपा ग्रामवासी
				1070	निजी	खेती	1809.2	हेमसिंह पुत्र खचेडू, श्रीमति शान्ती पत्नी हेमसिंह ग्रामवासी
				1071	निजी	खेती	1739.6	हेमसिंह पुत्र खचेडू ग्रामवासी
				1072	निजी	खेती	5595.7	अरविन्द मलिक पुत्र देवदत्त मलिक नि० सी० 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया दिल्ली
				1076/1	निजी	खेती	35.1	चमन पुत्र प्यारे, भाग सिंह पुत्र धनश्याम व शंकर, नौरंग, राजकुमार पुत्र महीपाल ग्रामवासी
				1077	निजी	खेती	3941.3	मामचन्द पुत्र होराम नि० बम्बावड, अरविन्द मलिक पुत्र देवदत्त मलिक नि० सी० 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली
				1078/1	निजी	खेती	2639.5	श्रीमति सुमन गुप्ता पत्नी हरिश गुप्ता नि० दादरी, श्रीमति कृष्णा देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार नि० गाजियाबाद, सरवन व प्रदीप पुत्र बाबू ग्रामवासी
				1078/2	निजी	खेती	735.2	श्रीमति सुमन गुप्ता पत्नी हरिश गुप्ता नि० दादरी, श्रीमति कृष्णा देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार नि० गाजियाबाद, सरवन व प्रदीप पुत्र बाबू ग्रामवासी
				1094/1	निजी	खेती	1588.9	ब्रह्मपाल सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह नि० तिलपता करनवास व श्रीमति ज्ञावन्ती पत्नी छंगा, बलजीत पुत्र न्यादर व अफलातून व ब्रह्मा पुत्र नागर, श्यामलाल पुत्र कृपाल ग्रामवासी, परमाल पुत्र राजाराम नि० बडपुरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1095	निजी	खेती	585.4	अरविन्द मलिक पुत्र देवदत्त मलिक, मधूसूदन शर्मा पुत्र रामप्रकाश शर्मा नि० सी० 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली
				1096/1	निजी	खेती	453.8	श्रीमति कृष्णा देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार नि० गाजियाबाद
				1096/2	निजी	खेती	83.3	श्रीमति कृष्णा देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार नि० गाजियाबाद
				1099	निजी	खेती	275.4	ब्रह्मपाल सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह नि० तिलपता करनवास
				1100	निजी	खेती	2408.1	अरविन्द मलिक पुत्र देवदत्त मलिक नि० सी० 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली
				1101	निजी	खेती	6639.9	जुगेन्द्र सिंह पुत्र नन्हू सिंह नि० साकीपुर
				1102/1	निजी	खेती	1239.2	जी० एन० इलैक्टो प्लास्ट प्रा० लि० निवासी सी 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली, चन्द्रपाल, मदनपाल, धर्मपाल, प्रेमपाल पुत्र श्यामलाल निवासी ग्रामवासी
				1102/2	निजी	खेती	1507.8	शान्ती देवी पत्नी ईश्वर दास नि० गाजियाबाद
				1105/1	निजी	खेती	2622.2	अरविन्द मलिक पुत्र देवदत्त मलिक, मधूसूदन शर्मा पुत्र रामप्रकाश शर्मा नि० सी० 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली
				1105/2	निजी	खेती	492.6	अरविन्द मलिक पुत्र देवदत्त मलिक, मधूसूदन शर्मा पुत्र रामप्रकाश शर्मा नि० सी० 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली
				1106	निजी	खेती	725.9	ब्रह्मपाल सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह नि० तिलपता, धानसिंह पुत्र रामसरन देवी पुत्र प्रेमसिंह, कमला पुत्र नौबत, करन सिंह, उदय सिंह, जतन सिंह पुत्र मलखान सिंह ग्रामवासी
				1186	निजी	खेती	4530.4	श्रीमति कान्ती पत्नी रामफल, सत्यवीर व चन्द्रपाल पुत्र रामफल, श्रीमति शान्ती देवी पत्नी हेमसिंह ग्रामवासी
				1187	निजी	खेती	3824.6	श्रीमति कान्ती पत्नी रामफल, सत्यवीर व चन्द्रपाल पुत्र रामफल, रणवीर पुत्र बनी सिंह, सुरजपाल पुत्र मुरली ग्रामवासी, कूडे पुत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								खेती
				1188	निजी	खेती	1908/5	धर्ममति कान्ती पत्नी रामफल व दलवीर व चन्द्रपाल पुत्र रामफल ग्रामवासी, कूडे पुत्र खचेडू
				1193	निजी	खेती	329	चन्द्रजीत पुत्र गोपीचन्द, राजकुमार, प्रताप सिंह पुत्र श्रीमसिंह ग्रामवासी, महावीर सिंह पुत्र श्यौलाल नि० अच्छेजा
				1194	निजी	खेती	584/2	कूडे पुत्र खचेडू, महावीर पुत्र श्यौलाल नि० अच्छेजा, धर्मपाल पुत्र हरलाल, महेन्द्र सिंह पुत्र तालब, नवाब सिंह पुत्र हरवंश, दलवीर पुत्र बनी सिंह ग्रामवासी
				1195	निजी	खेती	531/2	नवाब सिंह पुत्र हरवंश, रणवीर पुत्र बनी सिंह ग्रामवासी
				1204	निजी	खेती	463	महेन्द्र सिंह पुत्र तालब ग्रामवासी
				1205	निजी	खेती	259/1	धर्मपाल पुत्र हरलाल, महेन्द्र सिंह पुत्र तालब ग्रामवासी
				1206	निजी	खेती	231/1	धर्मपाल पुत्र हरलाल, दलवीर पुत्र श्रीमसिंह ग्रामवासी, महावीर पुत्र श्यौलाल नि० अच्छेजा
				1207/1	निजी	खेती	341/1	दलवीर पुत्र श्याम सिंह ग्रामवासी, केशनवीर सिंह पुत्र लच्छू सिंह नि० बड़पुरा
				1207/2	निजी	खेती	111/1	महावीर पुत्र श्यौलाल नि० अच्छेजा
				1208/2	निजी	खेती	735/2	दलवीर पुत्र श्याम सिंह ग्रामवासी, महावीर पुत्र श्यौलाल नि० अच्छेजा
				1209/1	निजी	खेती	144/1	छैलू, हरीचन्द, मेहरचन्द, रामलाल पुत्र रामगोपाल व दलवीर सिंह, सुरेश सिंह, महेश सिंह, फरमेश सिंह पुत्र बल्लेसिंह व जयचन्दी बेवा स्व० बल्ले सिंह व धर्मवीर, जगू पुत्र छैलू नि० बड़पुरा
				1209/2	निजी	खेती	283/2	छैलू व हरीचन्द, मेहरचन्द व रामलाल पुत्र रामगोपाल व दलवीर सिंह, सुरेश सिंह, महेश सिंह, फरमेश सिंह पुत्र बल्लेसिंह व जयचन्दी बेवा स्व० बल्ले सिंह व धर्मवीर, जगू पुत्र छैलू नि० बड़पुरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1213	निजी	खेती	1763.4	हेम सिंह पुत्र मामराज ग्रामवासी, मिश्रीलाल पुत्र हरकरन नि० दल्लूपुरा व श्रीमति कश्मीरी पत्नी गिरवर नि० शामली तहसील सिकन्दराबाद, दिनेश कुमार पुत्र चाननलाल नि० मण्डी भटिण्डा व अरविन्द मलिक पुत्र देवदत्त मलिक नि० 1/18 सफदरजंग डेवलेपमेन्ट एरिया नई दिल्ली तेजपाल पुत्र रोशन सिंह नि० पीपल का सूरजपुर धनेश कुमार पुत्र रामौतार नि० सेकेण्ड एफ० 31 नेहरू नगर गाजियाबाद
				1216	निजी	खेती	782.6	श्रीमति मुनेश पत्नी सुखवीर सिंह व श्रीमति राधारानी पत्नी राकेश सिंह व विनय प्रताप सिंह, शिशोदिया ना० बा० उम्र 3 वर्ष संरक्षिका माँ राधारानी पुत्र राकेश सिंह
				1217/1	निजी	खेती	3280.4	देवकरन पुत्र अपला नि० बडपुरा
				1217/2	निजी	खेती	78.1	देवकरन पुत्र अपला नि० बडपुरा
				1218	निजी	खेती	1469.8	देवकरन पुत्र अपला नि० बडपुरा
				1219	निजी	खेती	196.9	देवकरन पुत्र अपला नि० बडपुरा
				1221	निजी	खेती	229.4	देवकरन पुत्र अपला, लखीचन्द पुत्र सम्पत नि० बडपुरा, अवतार, गजेन्द्र पुत्र छीतर मल ग्रामवासी
				1222	निजी	खेती	3032.3	श्रीमति शान्ति देवी पत्नी ईश्वर दास बंसल नि० 3 एफ० 160 नेहरू नगर गाजियाबाद
				1234/1	निजी	खेती	3141.3	राजसिंह पुत्र चरनसिंह ग्रामवासी
				1235	निजी	खेती	3359.3	श्री कृष्ण पुत्र गजेन्द्रसिंह ग्रामवासी
				1236	निजी	खेती	3491.5	श्री कृष्ण पुत्र गजेन्द्रसिंह ग्रामवासी
				1249	निजी	खेती	8.0	पाले पुत्र रिसाल नि० बडपुरा
				1250	निजी	खेती	500.6	पाले, धनपाल पुत्र रिसाल, बदले पुत्र निहाल नि० बडपुरा
				1251	निजी	खेती	661.7	बदले पुत्र निहाल, नरेन्द्र सिंह व विनोद कुमार पुत्र जय सिंह नि० बडपुरा
				1252	निजी	खेती	818.7	बदले पुत्र निहाल, नरेन्द्र सिंह व विनोद कुमार पुत्र जय सिंह नि० बडपुरा
				1253/3	निजी	खेती	1796.8	बदले पुत्र निहाल, नरेन्द्र सिंह व विनोद कुमार पुत्र जय सिंह नि० बडपुरा, धर्मवीर पुत्र हरलाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ग्रामवासी
				1254/1	निजी	खेती	440.5	जयसिंह, बदले पुत्र निहाल सिंह, खजान पुत्र राजाराम, जिलेराम, सरदार सिंह, धर्मवीर पुत्र हरलाल, विजेन्द्र सिंह, विक्रम सिंह पुत्र तेका, श्रीमति गिरवती पत्नी तेका नि० बडपुरा
				1254/2	निजी	खेती	1084.4	श्रीकृष्ण पुत्र गजेन्द्रपाल ग्रामवासी
				1255	सरकारी	नाला	1140.7	
				1256	निजी	खेती	541.8	सुन्दर शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा नि० हबीबपुर व तेजपाल शर्मा पुत्र परमानन्द शर्मा, धन्नी पुत्र राजाराम नि० बेदपुरा, बलजीत कुमार पुत्र मूलचन्द शर्मा नि० जारचा रोड कस्बा दादरी
				1257/1	निजी	खेती	757.8	धन्नी, खजान् सिंह पुत्र राजाराम नि० बडपुरा
				1257/2	निजी	खेती	539.5	खजान पुत्र राजाराम नि० बडपुरा
				1258/2	निजी	खेती	6296.2	श्रीमति शान्ती देवी पत्नी ईश्वर दास बंसल नि० 3 एफ० 160 नेहरू नगर गाजियाबाद, सुन्दर शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा नि० हबीबपुर, तेजपाल पुत्र परमानन्द शर्मा नि० बेदपुरा, ललित कुमार पुत्र मूलचन्द नि० जारचा रोड दादरी, धन्नी पुत्र राजाराम नि० बडपुरा, ईश्वरलाल पुत्र रामबक्श नि० गाजियाबाद, खजान पुत्र राजाराम नि० बडपुरा,
				1258/1	निजी	खेती	2060.2	श्री सुन्दर शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा नि० हबीबपुर, तेजपाल शर्मा पुत्र परमानन्द शर्मा नि० बेदपुरा ललित कुमार पुत्र मूलचन्द गर्ग जारचा रोड दादरी, खजान, धन्नी पुत्र राजाराम नि० बडपुरा
				1258/3	निजी	खेती	1045.5	अब्दुल पुत्र महमूद हसन व मौ० सज्जाद पुत्र हाजी अब्दुलरहीम नि० पीतम पुरा नई दिल्ली
				1261/1	निजी	खेती	319.9	काशीराम पुत्र बोदी, खजान पुत्र राजाराम, विरम पुत्र बोदा भागमल पुत्र बोदी नि० बडपुरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1262	निजी	खेती	1130.0	खजान पुत्र राजाराम, विरम पुत्र बोदा काशीराम पुत्र बोधी नि० बडपुरा
				1263/1	निजी	खेती	211.1	काशीराम पुत्र बोदी, विरम पुत्र बोदा नि० बडपुरा, सुधाशु गर्ग उर्फ बन्टी पुत्र मूलचन्द नि० दादरी, सुरेश सिंह पुत्र बल्ली सिंह, रनवीर पुत्र हेती ग्रामवासी
				1333/4	निजी	खेती	219.1	सुरजमल, हंसा, मन्ना पुत्र मुन्नी व सुखवीर पुत्र बल्ली नि० बडपुरा
				1342	निजी	खेती	81.0	बलजीत सिंह पुत्र रामस्वरूप, प्रेमपाल सिंह, ब्रजपाल सिंह, जैपाल सिंह पुत्र रामसिंह, कृष्णपाल सिंह व योगेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह, शेरपाल सिंह, अनेकपाल सिंह पुत्र राजपालसिंह व जगमाल सिंह, धर्मवीर सिंह, सत्यवीर सिंह, जगवीर सिंह व राजसिंह पुत्र रनसिंह व राजाराम पुत्र रघुवीर ग्रामवासी
				1343	निजी	खेती	3669.4	जतनसिंह, किशनसरूप, सच्चे सिंह, रकमसिंह पुत्र शोभाराम नि० बडपुरा
				1344	निजी	खेती	700.5	दुक्की पुत्र वेदराम ग्रामवासी, लोकेश पुत्र मिट्ठन लाल नि० अयोध्यागंज दादरी
				1345	निजी	खेती	1555.5	रमेशचन्द पुत्र पन्नालाल नि० दादरी
				1346	निजी	खेती	232.5	धीरजसिंह, सूरजपाल उर्फ सरोजपाल, निरंजन सिंह, यशपाल सिंह, सुदेश सिंह पुत्र नानकसिंह, अरविन्द सिंह, आलोक सिंह पुत्र कटारसिंह ग्रामवासी
				1348	निजी	खेती	2386.7	जिलेराम, वेदराम, जगताराम पुत्र रघुवीर नि० बडपुरा
				1349	निजी	खेती	1117.1	जगराम पुत्र रघुवीर नि० बडपुरा
				1355	निजी	खेती	1766.9	गिरवर पुत्र इशीरया नि० बडपुरा
				1357	निजी	खेती	1089.6	लोकेश चन्द पुत्र मिट्ठन लाल, श्रीमति साधना पत्नी रमेशचन्द नि० दादरी, श्रीमति जनकप्यारी पत्नी हरवंश ग्रामवासी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1369/1	खेती	खेती		राजवीर पुत्र रनधीर, बलवीर पुत्र रघुवीर पुत्र हरभजन, राजवीर पुत्र मोहन, श्यामलाल पुत्र भीम सिंह ग्रामवासी, भीम सिंह, दयाराम कुमार पुत्र रामस्वरूप, भाषादि राजपाली बेवा सन्तराम पुत्र मई मण्डी दिल्ली, मनीष (ना० 7 वर्ष), सुमित (ना० 5 वर्ष), सुरज (ना० 3 वर्ष) पुत्र नत्थी मण्डीका माँ सीताफली, जयपाल पुत्र रेवती, मेघसिंह, जयवीर पुत्र नरवल्लभ, सत्यवती बेवा रामवीर, राजवीर पुत्र आजाद सिंह, रोहतास, जयपाल पुत्र रामजीलाल, पुष्पेन्द्र पुत्र वासुदेव, सरवती पत्नी ग्रामवासी
				1374/2	खेती	खेती		राजवीर पुत्र मिट्ठन लाल, साधना पत्नी रमेशचन्द्र पुत्र दादरी, श्रीमति जनकप्यारी पुत्र वंश ग्रामवासी
				1370	खेती	खेती		राजवीर पुत्र मुसददी ग्रामवासी
				1378	खेती	खेती		राजवीर पुत्र भोला नि० ग्रामवासी करनवास
				1390/1	खेती	खेती		राजवीर पुत्र मुसददी ग्रामवासी
				1405	खेती	खेती		राजवीर व राजवीर पुत्र भगीरथ व श्रीमति सुधारानी पत्नी चन्द्रपाल ग्रामवासी
				1406	खेती	खेती		राजवीर वन्द पुत्र मिट्ठन लाल, साधना पत्नी रमेशचन्द्र पुत्र दादरी, श्रीमति जनकप्यारी पुत्र वंश ग्रामवासी
				1457	खेती	खेती	24.12.19	राजवीर व राजवीर पुत्र भगीरथ व श्रीमति सुधारानी पत्नी चन्द्रपाल ग्रामवासी
				1468	खेती	खेती	3.12.19	जयाराम, भीम सिंह, दयाराम व राजेश्वर पुत्र रामशरण नि० ग्रामवासी
				1490	खेती	खेती	28.12.19	भीम सिंह, सूरजपाल उर्फ सूरजपाल, निरंजन सिंह व जयपाल सिंह, सुदेश सिंह पुत्र जयपाल सिंह, अरविन्द सिंह, जयपाल सिंह पुत्र कटारसिंह ग्रामवासी
				1470	खेती	खेती	3.12.19	भीम सिंह, सूरजपाल उर्फ सूरजपाल, निरंजन सिंह व जयपाल सिंह, सुदेश सिंह पुत्र जयपाल सिंह, अरविन्द सिंह, जयपाल सिंह पुत्र कटारसिंह ग्रामवासी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(2)खटाना धीरखेड़ा	487/1	निजी	खेती	767.2	रामचन्द्र पुत्र जहरिया नि० मिलक खटाना
				488	निजी	खेती	7140.4	रामचन्द्र पुत्र जहरिया व वसन्ता पुत्र सुनहरी, राजेन्द्र एवं विजेन्द्र पुत्र हरदन, श्रीमति रेशमदेवी पत्नी हरदन नि० मिलक खटाना
				487/5	निजी	खेती	62.5	वसन्ता पुत्र सुनहरी नि० मिलक खटाना
				489/2	निजी	खेती	9248.2	वसन्ता पुत्र सुनहरी, राजेन्द्र एवं विजेन्द्र पुत्र हरदन, श्रीमति रेशमदेवी पत्नी हरदन, लायकराम पुत्र गुलजारी, रामजीलाल पुत्र हजारी, जिलेराम पुत्र रामजीलाल नि० मिलक खटाना
				489/1	निजी	खेती	372.3	लायकराम पुत्र गुलजारी नि० मिलक खटाना
				490	निजी	खेती	2375.5	लायकराम पुत्र गुलजारी, रामजीलाल पुत्र हजारी, ओमप्रकाश पुत्र दौलत, बदले पुत्र दानसहाय नि० मिलक खटाना,
				506	निजी	खेती	2043.1	भजनलाल पुत्र लालसिंह, ओमप्रकाश पुत्र दौलत, बदले पुत्र दानसहाय नि० मिलक खटाना
				507	निजी	खेती	1862.9	भजनलाल पुत्र लालसिंह, रामसरनसिंह, भोपालसिंह पुत्र खचेडू, बदले पुत्र दानसहाय नि० मिलक खटाना, सतवीर, रामकुमार, जगवीर पुत्र श्रीचन्द नि० बैरगपुर नई बस्ती व जगमाल पुत्र रामसरन नि० किराचपुर उर्फ कैलाशपुर
				508	निजी	खेती	8832.7	सतवीर, रामकुमार, जगवीर पुत्र श्रीचन्द नि० बैरगपुर व जगमाल पुत्र रामसरन नि०किराचपुर उर्फ कैलाशपुर ओमप्रकाश पुत्र दौलत, बदले पुत्र दानसहाय, रामजीलाल पुत्र हजारी, जिलेराम पुत्र रामजीलाल नि० मिलक खटाना
				509	निजी	खेती	404.9	जिलेराम पुत्र रामजीलाल नि० मिलक खटाना
				505/2	निजी	खेती	28.8	भजनलाल पुत्र लालसिंह नि० मिलक खटाना
				505/3	निजी	खेती	2038.6	भजनलाल पुत्र लालसिंह, रामसरन, भोपालसिंह पुत्र खचेडू नि० मिलक खटाना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				505/4	निजी	खेती	1341.9	भजनलाल पुत्र लालसिंह, शीशपाल पुत्र रामनाथ, किशनलाल पुत्र रामफल नि० मिलक खटाना
				505/5	निजी	खेती	3995.8	किशनलाल पुत्र रामफल, रामसरन, भोपालसिंह पुत्र खचेडू, भजनलाल पुत्र लालसिंह, रोहतास रविन्द्र, बिजेन्द्र पुत्र रामेश्वर, श्रीमति कृपाली पत्नी स्व० रामेश्वर हरकिशन जगवीर पुत्र सुल्ली नि० मिलक खटाना
				516	निजी	खेती	3175.5	भजनलाल पुत्र लालसिंह, रामसरन, भोपालसिंह पुत्र खचेडू नि० मिलक खटाना
				518/1	निजी	खेती	1614.9	रोहतास, रविन्द्र, बिजेन्द्र पुत्र रामेश्वर श्रीमति, कृपाली पत्नी स्व० रामेश्वर हरकिशन, जगवीर पुत्र सुल्ली नि० मिलक खटाना
				518/2	निजी	खेती	3126.6	किशनलाल पुत्र रामफल, रामचन्द्र पुत्र जहरीया हरकिशन, जगवीर पुत्र सुल्ली रोहतास रविन्द्र, बिजेन्द्र पुत्र रामेश्वर, श्रीमति कृपाली पत्नी स्व० रामेश्वर नि० मिलक खटाना
				520/1	निजी	खेती	3666.2	बृजपाल माहिलसिंह पुत्र नौबत नि० मिलक खटाना राजेन्द्र, वीरपाल पुत्र अमीचन्द नि० इमलियका, हुकमसिंह पुत्र जयपाल ग्रामवासी, राजपालसिंह पुत्र भागमल, महेरचन्द, रणवीर पुत्र सुल्ली नि० मिलक खटाना
				520/2	निजी	खेती	2854.4	हुकमसिंह पुत्र जयपाल ग्रामवासी, राजपालसिंह पुत्र भागमल, महेरचन्द, राजवीर पुत्र सुल्ली नि० मिलक खटाना, बृजपाल, माहिल सिंह पुत्र नौबत नि० मिलक खटाना, राजेन्द्र, वीरपाल पुत्र अमीचन्द नि० इमलियका
				520/3	निजी	खेती	3.0	घनश्याम, महीपाल, लेखराज, चाहताराम, दाताराम पुत्र जोरा नि० मिलक खटाना
				521	निजी	खेती	897.9	हुकमसिंह पुत्र जयपाल ग्रामवासी, राजपालसिंह पुत्र भागमल नि० मिलक खटाना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				522	निजी	खेती	830.1	बुजपाल, माहिलसिंह पुत्र नौबत नि० मिलक खटाना, राजेन्द्र, वीरपाल पुत्र अमीचन्द नि० इमलियका, हुकमसिंह पुत्र जयपाल ग्रामवासी, राजपालसिंह पुत्र भागमल, घनश्याम, महीपाल, लेखराज, चाहताराम, दाताराम पुत्र जोरा, रोहतास राविन्द्र, बिजेन्द्र पुत्र रामेश्वर श्रीमति. कृपाली पत्नी रामेश्वर नि० मिलक खटाना
				523/1	निजी	खेती	14.9	रामचन्द पुत्र जहरीया नि० मिलक खटाना
				523/2	निजी	खेती	3321.4	रामचन्द्र पुत्र जहरीया नि० मिलक खटाना व किशनलाल पुत्र रामफल नि० मिलक खटाना
				524	निजी	खेती	2135.5	रामचन्द पुत्र जहरीया, बूजपाल माहिलसिंह पुत्र नौबत नि० मिलक खटाना, राजेन्द्र, वीरपाल पुत्र अमीचन्द नि० इमलियका
				529	निजी	खेती	6665.6	विजय कुमार पुत्र यादराम नि० बहलोलपुर, सुरेशचन्द्र पुत्र सहीराम ग्रामवासी, महेरचन्द, राजवीर पुत्र सुल्ली निवासी मिलक खटाना
				534	निजी	खेती	2024.9	पोहपसिंह पुत्र श्रीराम, घनश्याम, महीपाल, लेखराज, चाहताराम, दाताराम पुत्र जोरा नि० मिलक खटाना
				535	निजी	खेती	3189.8	राजवीर सिंह पुत्र आशाराम नि० नई बस्ती
				536	निजी	खेती	5559.8	राजवीरसिंह पुत्र आशाराम नि० नई बस्ती सुरेशचन्द पुत्र सहीराम ग्रामवासी, विजयकुमार पुत्र यादराम नि० बहलोलपुर, महेरचन्द, राजवीर पुत्र सुल्ली, पोहपसिंह पुत्र सहीराम, घनश्याम, महीपाल, लेखराज, चाहताराम, दाताराम पुत्र जोरा नि० मिलक खटाना
				566	निजी	खेती	1216.0	वीरसिंह पुत्र अमीचन्द नई बस्ती
				565	निजी	खेती	2099.4	वीरसिंह पुत्र अमीचन्द, निरोत्तम प्रसाद पुत्र नित्यानन्द नि० नई बस्ती

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				564	निज	पत्नी	123	श्रीमान पुत्र नित्यानंद श्रीमान नई बस्ती
				568	निज	पत्नी	3928	श्रीमान श्रीचन्द्र, निरोत्तम श्रीमान ध्यानन्द, चरनसिंह श्रीमान शाहमल, कैलाश श्रीमान नई बस्ती
				568	निज	पत्नी	6971	श्रीमान पुत्र लुट्टस, श्रीमान श्रीमकौर पत्नी श्रीमान लोनी
				620/2	निज	पत्नी	1518	श्रीमान कैसरी नि० नई
				620/1	निज	पत्नी	904	श्रीमान कैसरी नि० नई श्रीमान पुत्र नवाबसिंह श्री श्रीमान श्री स्व० श्रीमान नई बस्ती
				621/2	निज	पत्नी	2971	श्रीमान कैसरी, कैलाश पुत्र श्रीमान नई बस्ती
				619/1	निज	पत्नी	2541	श्रीमान नवाबसिंह, श्रीमति श्रीमान नवाबसिंह नि०
				619/2	निज	पत्नी	1141	श्रीमान चन्द, रमेशचन्द, श्रीमान रामकला, नवनीत श्रीमान धोसन पत्नी स्व० श्रीमान नई बस्ती
				618/1	निज	पत्नी	958	श्रीमान माद पुत्र तुला, श्रीमान पुत्र गोधा रामसिंह, श्रीमान नई बस्ती
				618/2	निज	पत्नी	178	श्रीमान तुला पुत्र गोधा, श्रीमान नई बस्ती, जगनसिंह, श्रीमान हुक्मी नि० नई
				624/2	निज	पत्नी	288	श्रीमान पुत्र जिलेराम, श्रीमान शम्बरसिंह पुत्र श्रीमान लीलासिंह पुत्र श्रीमान नई बस्ती
				625/2	निज	पत्नी	1650	श्रीमान शम पुत्र तुगलसिंह श्रीमान विजयपाल, श्रीमान पुत्र रिसालसिंह, श्रीमान हरनारायन नि०

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								नई बस्ती
				625/1	निजी	खेती	380.0	शिवनरायन पुत्र झिल्लर रिसाल पुत्र शिवदयाल, रामचन्द्र व गोधू भूले, हेमराज, पुत्र नन्दराम व बदले पुत्र खेमचन्द, धनश्याम व बलवीर पुत्र बंशी नि० नई बस्ती
				625/5	निजी	खेती	1732.5	बलराम, जिलेराम पुत्र तुगलसिंह नि० कुडी, मेरठ, विजयपाल, झब्बरसिंह पुत्र रिसालसिंह, लीलासिंह पुत्र हरनारायन नि० नई बस्ती
				625/6	निजी	खेती	3216.8	बलराम, जिलेराम पुत्र तुगलसिंह नि० कुडी, मेरठ, विजयपाल, झब्बरसिंह पुत्र रिसालसिंह, लीलासिंह पुत्र हरनारायन नि० नई बस्ती
		2. गौतम बुद्ध नगर	(1) जगनपुर अफजलपुर	282	निजी	खेती	2623.0	गिरधारी पुत्र हेतराम नि० अमरपुर
				280	निजी	खेती	165.0	गिरधारी पुत्र हेतराम, लेखराज पुत्र यादराम नि० अमरपुर
				838	निजी	खेती	7478.0	गिरधारी पुत्र हेतराम, रहमतुल्ला पुत्र वजीर नि० अमरपुर
				837	निजी	खेती	6081.0	रहमतुल्ला पुत्र वजीर, घर्मपाल सिंह व वीरसिंह पुत्र प्रेमराज सिंह व श्रीमती सत्यवती उर्फ सत्तो पत्नी जगपाल सिंह नि० अमरपुर
				831	निजी	खेती	2425.0	घर्मपाल सिंह व वीरसिंह पुत्र प्रेमराज सिंह व श्रीमती सत्यवती उर्फ सत्तो पत्नी जगपाल सिंह नि० अमरपुर, भूपसिंह पुत्र सावलिया, लेखराजसिंह पुत्र रामचरन महीपाल पुत्र रतीराम नि० चकसैनपुर गौतमबुद्ध नगर
				830	निजी	खेती	3117.0	घर्मपाल सिंह व वीरसिंह पुत्र प्रेमराज सिंह व श्रीमती सत्यवती उर्फ सत्तो पत्नी जगपाल सिंह नि० अमरपुर, भूपसिंह पुत्र सावलिया, लेखराजसिंह पुत्र रामचरन महीपाल पुत्र रतीराम नि० चकसैनपुर गौतमबुद्ध नगर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				829	निजी	खेती	2293.0	लेखराज सिंह पुत्र रामचरण सिंह व भूपसिंह पुत्र सावलिया , चकसेनपुर, महीपाल पुत्र रतीराम नि० गौतमबुद्ध नगर
				819	निजी	खेती	765.0	महावीर पुत्र रामजीलाल व श्रीमती अन्तो पत्नी रामजीलाल , लखपत पुत्र सूंगे उर्फ फतेह सिंह नि० नवादा
				817	निजी	खेती	14628.0	जगदीश , विजेन्द्र सिंह , देवेन्द्र सिंह पुत्र धर्मसिंह, लखपत पुत्र सूंगे उर्फ फतेह सिंह नि० नवादा
				797	सार्वजनिक	रास्ता	1176.0	ग्राम समाज
				940	निजी	खेती	827.0	खूबचन्द पुत्र सहता नि० नवादा
				945	निजी	खेती	865.0	लेखी पुत्र खूबी नि० नवादा , प्रेमचन्द व सुनील कुमार पुत्र रघुनाथ प्रसाद नि० पतपड़ा दनकौर
				944	निजी	खेती	1233.0	लेखी पुत्र खूबी नि० नवादा
				935	निजी	खेती	72.0	प्रेमचन्द व सुनील कुमार पुत्र रघुनाथ प्रसाद नि० पतपड़ा दनकौर
				955	निजी	खेती	4522.0	दयाराम सिंह व विक्रम सिंह पुत्र कन्नी सिंह उर्फ कर्ण सिंह प्रसादीलाल , रामअवतार , रमेश दयाल पुत्र डल्लू नि० नवादा , रामचन्द्र पुत्र नैनसिंह , नेतराम पुत्र छंगा व जनकराज पुत्र चेताराम
				953	निजी	खेती	296.0	दयाराम सिंह व विक्रम सिंह पुत्र कन्नी सिंह उर्फ करन सिंह नि० नवादा
				988	निजी	खेती	2375.0	नेतराम पुत्र छंगा नि० नवादा
				990	निजी	खेती	5343.0	जयकिशन , रघुराज सिंह , बलराज , हरेन्द्र सिंह पुत्र नेतराम पुत्र छंगा नि० नवादा मुन्शी पुत्र हरपत सिंह नि० मोहिददीनपुर
				991	निजी	खेती	1281.0	मुन्शी पुत्र हरपत सिंह नि० मोहिददीनपुर , नेतराम पुत्र छंगा नि० नवादा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1030	निजी	खेती	4232.0	राजेन्द्र सिंह व विजयपाल सिंह पुत्र जयराम सिंह, जयराम सिंह पुत्र मुन्नीलाल नि० दल्लूपुरा दिल्ली
				1032	सार्वजनिक	सड़क	582.0	ग्राम समाज
				1023	निजी	खेती	2814.0	राजेन्द्र सिंह व विजयपाल सिंह पुत्र जयराम सिंह, जयराम सिंह पुत्र मुन्नीलाल नि० दल्लूपुरा दिल्ली
				1029	निजी	खेती	1909.0	राजेन्द्र सिंह व विजयपाल सिंह पुत्र जयराम सिंह, जयराम सिंह पुत्र मुन्नीलाल नि० दल्लूपुरा दिल्ली
				1028	निजी	खेती	538.0	राजेन्द्र सिंह व विजयपाल सिंह पुत्र जयराम सिंह, जयराम सिंह पुत्र मुन्नीलाल नि० दल्लूपुरा दिल्ली
				1027	निजी	खेती	2462.0	राजेन्द्र सिंह व विजयपाल सिंह पुत्र जयराम सिंह, जयराम सिंह पुत्र मुन्नीलाल नि० दल्लूपुरा दिल्ली
				1026	निजी	खेती	1771.0	राजेन्द्र सिंह व विजयपाल सिंह पुत्र जयराम सिंह, जयराम सिंह पुत्र मुन्नीलाल नि० दल्लूपुरा दिल्ली
				1024	निजी	खेती	2934.0	राजेन्द्र सिंह व विजयपाल सिंह पुत्र जयराम सिंह, जयराम सिंह पुत्र मुन्नीलाल नि० दल्लूपुरा दिल्ली
				1025	निजी	खेती	7698.0	राजेन्द्र सिंह व विजयपाल सिंह पुत्र जयराम सिंह, जयराम सिंह पुत्र मुन्नीलाल नि० दल्लूपुरा दिल्ली, नेतराम पुत्र छंगा नि० नवादा
			(2) वेला कलों	75/8	निजी	खेती	37616.5	श्री प्रकाश पुत्र दीवान सिंह नि० नई बस्ती, आचार्य वाचस्पति पुत्र रामप्रसाद, राजकुमार शर्मा पुत्र प्यारे लाल नि० भूजखेड़ा, आनन्द शर्मा पुत्र रामप्रसाद, विनोद शर्मा मनोज पुत्र यादराम नि० नई बस्ती, रामेश्वर सिंह पुत्र केसरी सिंह जानकी प्रसाद पुत्र गेंदीराम, नितिन, गौरव पुत्र वेदप्रकाश, देव शर्मा पुत्र रामप्रसाद खजान दत्त शर्मा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								पुत्र चेताराम नि० नीमचाना
				33	निजी	खेती	93.0	अशोक कुमार पुत्र मुकुट लाल , पत्नी अरविन्द कुमार , नि० ग्राम आनन्द शर्मा पुत्र रामप्रसाद , नितिन व गौरव पुत्र चेतप्रकाश नि० नई बस्ती मुन्दरशहर
				36	निजी	खेती	1686.0	अशर्मा देवी पत्नी अमरसिंह , पुत्री धनश्याम दास नि० बिहारी कलानी दिल्ली, पत्नी शान्ति वर्मा पुत्री अनन्दाश लाल नि० अमरगढ़ पूर्वी पत्नी बनरासी नि० जेवर
				39	निजी	खेती	2870.1	अशोक पुत्र प्यारे नि० फतेहपुर अशोक राज पुत्र बल्लूराम नि० गलकाबाद दिल्ली
				40	निजी	खेती	6219.1	अशोक व. गफूर पुत्र अल्ला महेर, पत्नी मुद्दीन व शहजाद खान पुत्र अशोक नि० फतेहपुर अट्टा , अशोक पत्नी बाबू नि० फतेहपुर अट्टा व अल्लामहेर पुत्र मसुआ आदि
			(3) गुनपुरा	16	निजी	खेती	778.5	अशोक पुत्र सुखराम नि० अट्टा मुन्दरान
				21	निजी	खेती	1579.4	सरजीत पुत्र चेताराम नि० ग्राम , सत्यवीर पुत्र सरुपा नि० देवला
				22	निजी	खेती	604.8	सरजीत पुत्र चेताराम नि० ग्राम
				25	निजी	खेती	4070.1	अशोक, सहीराम, सत्यवीर पुत्र सरुपा नि० देवला , सरजीत पुत्र चेताराम नि० ग्राम
				26	निजी	खेती	563.9	सहीराम पुत्र सरुपा नि० देवला
				98	निजी	खेती	1320.0	योगेन्द्र पुत्र रामसरुप महेन्द्र , विरेन्द्र पुत्र फूल सिंह नि० ग्राम
				24	निजी	खेती	4697.8	अशोक, रामफल, सत्यवीर पुत्र सरुपा नि० देवला, सरजीत पुत्र चेताराम नि० ग्राम ,
			(4) फतेहपुर अट्टा	880	निजी	खेती	3288.7	धनपाल पुत्र जहरीया नि० मन्दावली

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				881	निजी	खेती	3162.3	भूलेसिंह पुत्र हरचन्दी नि० मूजखेडा व धर्मपाल पुत्र जहरीया नि० मन्डावली व उमर मौ०, नूर ईलाही पुत्र मुबारिक नि० ग्रामवासी
				879	निजी	खेती	885.4	भूलेसिंह पुत्र हरचन्दी नि० मूजखेडा
				878	निजी	खेती	1264.9	भूलेसिंह पुत्र हरचन्दी नि० मूजखेडा, नूर ईलाही पुत्र मुबारिक, खत्तो पत्नी इशहार ग्रामवासी
				776/1	निजी	खेती	402.7	भूलेसिंह पुत्र हरचन्दी नि० मूजखेडा
				776/2	निजी	खेती	463.0	भूलेसिंह पुत्र हरचन्दी नि० मूजखेडा, सचिन कुमार, संदीप कुमार (नाबालिग) पुत्र नवाबसिंह सं माता श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह व श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह, बलेश्वर, मुकेश कुमार पुत्र बृजपाल, ताज मौ० पुत्र अब्दुल वाहिद, जिले पुत्र सरसरी, फरीमुदिन, शाहजाद पुत्र बाबू ग्रामवासी, नन्हू खों, निजामुदिन पुत्र अब्दुल शकूर नि० दनकौर,
				777/2	निजी	खेती	131.5	भूलेसिंह पुत्र हरचन्दी नि० मूजखेडा, सचिन कुमार, संदीप कुमार (नाबालिग) पुत्र नवाबसिंह सं माता श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह व श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह, बलेश्वर, मुकेश कुमार पुत्र बृजपाल, ताज मौ० पुत्र अब्दुल वाहिद, जिले पुत्र सरसरी, फरीमुदिन पुत्र मुराज ग्रामवासी, नन्हू खों, निजामुदिन पुत्र अब्दुल शकूर नि० दनकौर,
				778/2	निजी	खेती	207.6	भूलेसिंह पुत्र हरचन्दी, सचिन कुमार, संदीप कुमार (नाबालिग) पुत्र नवाबसिंह सं माता श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह व श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह, बलेश्वर, मुकेश कुमार पुत्र बृजपाल मूजखेडा.
				779/1	निजी	खेती	3371.3	भूलेसिंह पुत्र हरचन्दी नि० मूजखेडा, सचिन कुमार, संदीप कुमार (नाबालिग) पुत्र नवाबसिंह सं माता श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह व श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह, बलेश्वर, मुकेश कुमार पुत्र बृजपाल, नूर ईलाही पुत्र मुबारिक, खत्तो पत्नी इशहार ग्रामवासी, नन्हू खों, निजामुदिन पुत्र अब्दुल शकूर नि० दनकौर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				876	निजी	खेती	2513.9	धर्मपाल पुत्र जहरिया नि० मन्डावली, उमर मौ० पुत्र मुबारिक, नूर ईलाही पुत्र मुबारिक ग्रामवासी, नजर मौ०, इशहार, अब्बास, इन्साद पुत्र अली मौ०, श्रीमति बिस्मिलाह पत्नी अली मौ०, नूर मौ० पुत्र खान बहादुर, नियाज मौ० पुत्र रिसाल औसफ अली, जफर अली, साबिर अली पुत्र मकखन नि० ककराला, मीनूदिन पुत्र अब्दुल अजीज ग्रामवासी, कलुवा, रईस, मौ० शकील, सागीर आदि पुत्र शफी.
				787/1	निजी	खेती	2276.8	भूले सिंह पुत्र हरचन्दी नि० मूजखेडा, सचिन कुमार, संदीप कुमार (नाबालिग) पुत्र नवाबसिंह सं माता श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह व श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह, बलेश्वर, मुकेश कुमार पुत्र बृजपाल, सुजान पुत्र छोटी ग्रामवासी
				788/2	निजी	खेती	3541.7	सचिन कुमार, संदीप कुमार (नाबालिग) पुत्र नवाबसिंह सं माता श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह व श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह राकेश पुत्र बृजपाल नि० मूजखेडा, कलुवा, रईस मौ०, शकील, शागीर पुत्र शफी, खान बहादुर पुत्र अब्दुल लतीफ नि० ककराला
				789/2	निजी	खेती	2009.0	कलुवा, रईस मौ०, शकील, शागीर पुत्र शफी.
				790/1	निजी	खेती	1249.8	सचिन कुमार, संदीप कुमार (नाबालिग) पुत्र नवाबसिंह सं माता श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह व श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह, राकेश पुत्र बृजपाल, भूलेसिंह पुत्र हरचन्दी नि० मूजखेडा, कलुवा, रईस मौ०, शकील, शागीर पुत्र शफी.
				793/1	निजी	खेती	942.0	सचिन कुमार, संदीप कुमार (नाबालिग) पुत्र नवाबसिंह सं माता श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह व श्रीमति सुनीता देवी पत्नी नवाबसिंह, राकेश पुत्र बृजपाल नि० मूजखेडा, कलुवा, रईस मौ०, शकील, शागीर आदि पुत्र शफी, खान बहादुर पुत्र अब्दुल लतीफ नि० ककराला
				795/1	निजी	खेती	1194.1	भूलेसिंह पुत्र हरचन्दी नि० मूजखेडा, खान बहादुर पुत्र अब्दुल लतीफ नि० ककराला
				796/1	निजी	खेती	2557.4	भूलेसिंह पुत्र हरचन्दी मूजखेडा, खान बहादुर पुत्र अब्दुल लतीफ नि० ककराला

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				797/1	निजी	खेती	1903.7	नूर मौ० पुत्र खान बहादुर व अब्दुल लतीफ, पुत्र कलुषा, रईस मौ०, शकील, शागीर पुत्र शफी, खान बहादुर पुत्र अब्दुल लतीफ नि० ककराला
				798	निजी	खेती	1897.4	औसाफ अली, जफर अली, शाबिर अली पुत्र मक्खन, नूर मौ० पुत्र खान बहादुर नि० ककराला, मीनूदिन पुत्र अब्दुल अजीज ग्रामवासी
				801	निजी	खेती	1115.5	नूर मौ० पुत्र खान बहादुर, खान बहादुर पुत्र अब्दुल लतीफ नि० ककराला
				802	निजी	खेती	632.5	औसाफ अली, जफर अली, शाबिर अली पुत्र मक्खन, मीनूदिन पुत्र अब्दुल अजीज ग्रामवासी, नूर मौ० पुत्र खान बहादुर नि० ककराला
				803/1	निजी	खेती	2369.2	औसाफ अली, जफर अली, शाबिर अली पुत्र मक्खन, मीनूदिन पुत्र अब्दुल अजीज ग्रामवासी, नूर मौ० पुत्र खान बहादुर नि० ककराला, नन्हे, शमशेर कालू पुत्र निहाला खान बहादुर पुत्र अब्दुल लतीफ
				813	निजी	खेती	1567.7	नन्हे, शमशेर, कालू पुत्र निहाला, औसाफ अली, जफर अली, शाबिर अली पुत्र मक्खन, मीनूदिन पुत्र अब्दुल अजीज ग्रामवासी, नूर मौ० पुत्र खान बहादुर, खान बहादुर पुत्र अब्दुल लतीफ नि० ककराला
				814	निजी	खेती	2700.3	नूर मौ० पुत्र खान बहादुर नि० ककराला, खान बहादुर, मौ० यामीन पुत्र अब्दुल लतीफ, नन्हे, शमशेर, कालू पुत्र निहाला ग्रामवासी
				817/1	निजी	खेती	2246.9	नूर मौ० पुत्र खान बहादुर, नि० ककराला मौ० यामीन पुत्र अब्दुल लतीफ ग्रामवासी, अमजद अली पुत्र नसीब नि० नूर पुर, औसाफ अली, जफर अली, शाबिर अली पुत्र मक्खन, मीनूदिन पुत्र अब्दुल अजीज
				819	निजी	खेती	1285.0	मौ० यामीन पुत्र अब्दुल लतीफ नि० ककराला
				821/1	निजी	खेती	1644.4	मौ० यामीन पुत्र अब्दुल लतीफ नि० ककराला, अमजद अली पुत्र नसीब नि० नूरपुर
				821/2	निजी	खेती	1106.6	अमजद अली पुत्र नसीब नि० नूरपुर

1	2	3	4	5	6	7	9
				825/1	निजी	खेती	400 अली पुत्र नसीब नि० नूरपुर, मौ० पुत्र बुद्धन, इब्राहिम पुत्र ग्रामवासी, अमजद अली पुत्र नूरपुर, साजिद हुसैन पुत्र ककराला
				826	निजी	खेती	500 मौ० पुत्र बुद्धन, इब्राहिम पुत्र ग्रामवासी
				828	निजी	खेती	2600 अली पुत्र नसीब नि० नूरपुर, मौ० पुत्र बुद्धन, इब्राहिम पुत्र ग्रामवासी,
				829	निजी	खेती	1000 इब्राहिम पुत्र रसीदा ग्रामवासी, अमजद अली पुत्र नजीर नि० नूरपुर, साजिद हुसैन पुत्र यामीन नि० ककराला
				842/1	निजी	खेती	4000 मौ० पुत्र बुद्धन, इब्राहिम पुत्र रसीदा ग्रामवासी, रियासत अली पुत्र यामीन नि० ककराला, कृष्णा, मुरारी, रूपकिशोर, पवनकुमार पुत्र राधेश्याम नि० चान्दपुर
				843	निजी	खेती	1000 रियासत अली पुत्र मौ० यामीन नि० ककराला, शौकत अली पुत्र यासीन नि० ककराला, कृष्णा, मुरारी, रूपकिशोर, पवनकुमार पुत्र राधेश्याम नि० चान्दपुर
				844/2	निजी	खेती	600 कृष्णा, मुरारी, रूपकिशोर, पवनकुमार पुत्र राधेश्याम नि० चान्दपुर
				845	निजी	खेती	2500 फिदवी, राशीद, तारीकात, हकीकत पुत्र शुभराती, चान्द मौ० पुत्र बुद्धन ग्रामवासी, कृष्णा, मुरारी, रूपकिशोर, पवनकुमार पुत्र राधेश्याम नि० चान्दपुर
				846	निजी	खेती	3000 मौ० पुत्र बुद्धन ग्रामवासी
				848/2	निजी	खेती	1000 फिदवी, राशीद, तारीकात, हकीकत पुत्र शुभराती, कृष्णा, मुरारी, रूपकिशोर, पवनकुमार पुत्र राधेश्याम नि० चान्दपुर, सफिया पुत्र न्याज नि० अफरु पुत्र नजफ ग्रामवासी
				677	निजी	खेती	500 बुज्जालसिंह पुत्र कमलसिंह नि० जिजरीदा, तहसीन पुत्र आशिक अली, अशकी बेगम पत्नी इशाहाक, सुखा पुत्र इहमदाद, शमशाद पुत्र छिददा ग्रामवासी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				691	निजी	खेती	9415.0	कृष्णा, मुरारी, रूपकिशोर, पवनकुमार पुत्र राधेश्याम नि० चान्दपुर, सफिया पुत्र न्याज मौ० जफरु पुत्र नजफ अली ग्रामवासी
				682	निजी	खेती	595.9	बृजपाल सिंह, सुशील पुत्र कमलसिंह नि० अजरौदा, फारुख, नजाकत, आबिद पुत्र शेरुदिन, शकूरा पुत्र फकीरा ग्रामवासी
				851	निजी	खेती	111.1	छिददी, राशिद, तारीकात, हकीकत पुत्र शुभराती, सफिया पुत्र न्याज ग्रामवासी
				852	निजी	खेती	2142.6	असगर पुत्र न्याज अली नि० दतावली सफिया पुत्र न्याज ग्रामवासी, खुशीद अली, फारुख, आबिद पुत्र शेरुदिन ग्रामवासी
				863	निजी	खेती	1939.5	असगर पुत्र न्याज अली नि० दतावली बृजपाल सिंह पुत्र कमलसिंह नि० अजरौदा
				861	निजी	खेती	1656.5	असगर पुत्र न्याज अली नि० दतावली खुशीद, फारुख, नजाकत, आबिद पुत्र शेरुदिन ग्रामवासी
				860	निजी	खेती	1636.2	असगर पुत्र न्याज अली नि० दतावली बृजपाल सिंह पुत्र कमलसिंह नि० अजरौदा, खुशीद अली, फारुख, नजाकत, आबिद पुत्र शेरुदिन ग्रामवासी
				854	निजी	खेती	21.6	खुशीद अली, फारुख, नजाकत, आबिद पुत्र शेरुदिन, रईस खान, इकराम खान, गफूर खान पुत्र अल्हामहर ग्रामवासी
				856	निजी	खेती	634.0	रईस खान, इकराम खान, गफूर खान जफरुद्दीन, निजामुद्दीन पुत्र अल्हामहर, कमरुद्दीन, सलाउद्दीन पुत्र रमजानी ग्रामवासी
				857	निजी	खेती	701.3	रईस खान, इकराम खान, गफूर खान पुत्र अल्हामहर, रफू पुत्र नजफ अली, खुशीद अली, नजाकत, फारुख, आबिद पुत्र शेरुदिन, फारुख अली, नजाकत अली, आबिद अली पुत्र शेरुदिन कमरुद्दीन, सलाउद्दीन पुत्र रामजानी ग्रामवासी
				858	निजी	खेती	647.4	रईस खान, इकरामखान, गफूर खान पुत्र अल्हामहर, कमरुद्दीन, सलाउद्दीन पुत्र रमजानी रफू पुत्र न्याज अली ग्रामवासी,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				859	निजी	खेती	3909.6	असगर पुत्र न्याज अली नि० दतावली बृजपाल सिंह पुत्र कमलसिंह नि० अजरौदा, खुशीद अली, फारुख, आबिद, नजाकत पुत्र शेरुदिदन, फजरुदिदन पुत्र आशिक, फारुख अली पुत्र नजाकत अली, मलहू पुत्र फकीर, रफ्फू पुत्र नजफ अली ग्रामवासी
				864	निजी	खेती	2004.0	बृजपाल सिंह पुत्र कमलसिंह नि० अजरौदा
				865	निजी	खेती	850.2	मलहू पुत्र फकीर ग्रामवासी
				869	निजी	खेती	2675.9	फजरुदिदन पुत्र आशिक, कमरुदिदन, सलाउदिदन, जफरुदिदन पुत्र रमजानी रफ्फू पुत्र नजफ अली ग्रामवासी
				868/1	निजी	खेती	379.5	फजरुदिदन पुत्र आशिक ग्रामवासी
				931/5	निजी	खेती	474.2	इन्तजाम अली पुत्र अहमद, रफ्फू पुत्र नजफ अली, कमरुदिदन, सलाउदिदन, जफरुदिदन आदि पुत्र रमजानी, नीनू पुत्र इनायत, सफिया पुत्र छगा, सुबराती पुत्र ननुवा ग्रामवासी
				931/6	निजी	खेती	2530.0	फजरुदिदन पुत्र आशिक, रफ्फू पुत्र नजफ अली, नजर मौ०, इदरिस, आस मौ०, उमर मौ०, जफरुदिदन पुत्र नजफ अली ग्रामवासी
				931/7	निजी	खेती	11318.0	फजरुदिदन पुत्र आशिक, रफ्फू पुत्र नजफ अली, नजर मौ०, इदरिस, आस मौ०, उमर मौ०, जफरुदिदन पुत्र नजफ अली ग्रामवासी
				931/8	निजी	खेती	537.9	नजर मौ०, इदरिस, आस मौ०, उमर मौ०, जफरुदिदन पुत्र नजफ अली ग्रामवासी
				931/9	निजी	खेती	2530.0	नीनू पुत्र इनायत ग्रामवासी
				931/10	निजी	खेती	56.0	सुबराती पुत्र नानूवा, नीनू पुत्र इनायत, फत्ता पुत्र वारे ग्रामवासी
				933/1	निजी	खेती	4210.0	नजर मौ०, इदरिस, आस मौ०, उमर मौ०, जफरुदिदन पुत्र नजफ अली, फत्ता पुत्र वारे ग्रामवासी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				933/2	निजी	खेती	4570.4	नीनू पुत्र इनायत, फत्ता पुत्र वीर ग्रामवासी, बृजपाल सिंह, सुनील पुत्र कमलसिंह नि० अजरौदा
				932/1	निजी	खेती	81.4	नजर मौ०, इदरिस, आस मौ०, उमर मौ०, जफरुद्दिन पुत्र नजफ अली ग्रामवासी
				937	निजी	खेती	2288.6	नीनू पुत्र इनायत ग्रामवासी, बृजपाल सिंह, सुनील पुत्र कमलसिंह नि० अजरौदा
				939/10	निजी	खेती	7593.0	नीनू पुत्र इनायत, सुबराती पुत्र ननूया, पप्पू पुत्र वाहिद ग्रामवासी
				939/11	निजी	खेती	1530.3	नीनू पुत्र इनायत, सुबराती पुत्र ननूया ग्रामवासी, बृजपाल सिंह, सुनील पुत्र कमलसिंह नि० अजरौदा
			(5) वेला खुर्द	172	निजी	खेती	7601.4	रामचन्द्र पुत्र अन्तराम पुत्र छजवा। श्रीमती मिश्री पत्नी स्व० मेहर चन्द। मोहरपाल, महीपाल, जयचन्द पुत्र श्रीमती धीरो पुत्री शिवलाल पुत्र मुनशी। सुखपाल, सुखवीर, रघुवीर पुत्र श्रीमती भत्तो पत्नी स्व० दीवान पुत्र खचेडू। श्रीमती नत्थो पत्नी मदीआ पुत्र हीरा। प्रहलाद पुत्र सूका पुत्र लालसिंह। पृथ्वी पुत्र नारायण सिंह पुत्र बुद्धा। छोटेला पुत्र दयाराम पुत्र बुद्धा। श्रीमती बलवन्ती पत्नी स्व० खेमचन्द। बोदले, किशनलाल पुत्र केहर पुत्र खुशया। घीसा पुत्र खुशया पुत्र फत्ता। श्रीमती सुरजो पत्नी स्व० गिरराज सिंह पुत्र श्रीमती गंगादेई, जलदेई, जैदेई पुत्री केवल पुत्र खुशया। ओमप्रकाश, हरिप्रकाश, सुरेन्द्र कुमार, देशपाल, विजेन्द्र पुत्र श्रीमती जैपाली, बाला पुत्री केवल। गिरीचन्द पुत्र मलहू पुत्र हरफूल। ओमप्रकाश पुत्र बोदले पुत्र हेमराज। रामकिशन, दयाराम, पीतमसिंह पुत्र श्रीमती
				173	निजी	खेती	34102.0	किशनवती, राजवतीपुत्री श्रीमती कश्मीरी पत्नी स्व० हेमराज। श्रीमती अतरु। करनसिंह, बलराज, सुरेन्द्र, विजेन्द्र पुत्र रतनलाल पुत्र गोविन्दसहाय।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2007

S.O. 349(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road transport and Highways (Department of Road transport and Highways), number S. O. 1307 (E), dated the **14th August 2006**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building, maintenance, management and operation of National Highway No. **NE-II (EASTERN PERIPHERAL EXPRESSWAY)** on the stretch of land from **Km 57.852 to km 99.400 (Gautam Budh Nagar Section)** in **District Gautam Budh Nagar** in the **State of Uttar Pradesh**;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Danik Jagaran**” and “**Rashtriya Sahara**”, both dated the **26th August, 2006**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from **Km 57.852 to Km 99.400 (Gautam Budh Nagar Section)** on the National Highway No. **NE-II** in the State of **Uttar Pradesh**.

Serial number	Name of the district	Name of the tehsil	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Land owner/Interested persons
---------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gautam Budh Nagar	1.Dadri	(1)Bisahada	692/1	Private	Agriculture	244.7	G. N. Electro Plast Pvt. Ltd., Through Director Shri Madhusoodan Sharma, Shri Ram Prakash Sharma R/o C-1/18, Safdarjung Development Area, New Delhi
				692/2	Private	Agriculture	2258.2	G. N. Electro Plast Pvt. Ltd., Through Shri Madhusoodan Sharma, Shri Ram Prakash Sharma R/o C - 1/18, Safdarjung Development Area, New Delhi
				693	Private	Agriculture	24.3	Lakshman, Sukhvir S/o Gajraj, Randhir, Rajvir S/o Tukti, Pratap S/o Jai Singh, Udayveer singh S/o Balveer singh, Rajsingh, Girraj singh, Prem singh, Shiv kumar S/o Sheoraj, Omveer singh, Omkaar Singh S/o Rambhool R/o Village.
				698	Private	Agriculture	1505.6	Rohtash S/o Mussadi, Daleep singh, Vijay singh S/o Revti Dattu, Naipal S/o Durga R/o Village.
				699	Private	Agriculture	3350.5	Jai prakash, Vijaypal, Rajender, Radhelal S/o Chiranj, Ved prakash, Jai prakash S/o Jamadaar, Pratap @ Prakash chand S/o Khachedu, Rambhool, Raghuwar S/o Musaddi, Suresh chand, Omprakash S/o Harnarayan & Santosh S/o Chhidda R/o Village
				700	Private	Agriculture	8379.6	Chetaram S/o Kaliya R/o Bambawad, G. N. Electro Plast Pvt. Ltd., Through Shri Madhusoodan Sharma, S/o Shri Ram Gopal Sharma R/o C - 1/18 Safdarjung Development Area, New Delhi
				701	Private	Agriculture	4058.0	Dhiraj singh, Surajpal @ Sarojpal, Niranjan singh & Yash pal singh, Suresh singh S/o Nanak singh, Nanak singh S/o Ramjilal & Arvind singh, Alok singh S/o Kataar singh R/o Village
				702	Private	Agriculture	1662.2	Dhiraj singh, Surajpal @ Sarojpal, Niranjan singh & Yash pal singh, Suresh singh

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								S/o Nanak singh, Nanak singh S/o Ramjilal & Arvind singh, Alok Singh S/o Kataar singh R/o Village
				703	Private	Agriculture	975.3	Lakshi singh S/o Bahaal, Shyamu S/o Sheonath, Sukhpal & Kamal singh S/o Raghuveer, Rohtash singh & Sheeshpal singh S/o Vishansingh, Saguwa S/o Bahaal & Sipattar S/o Malkhan R/o Village
				704/1	Private	Agriculture	11945.0	Hari singh & Sindhu S/o Gajraj, Ramveer S/o Rajveer, Chatar singh S/o Naipal, Chetram S/o Kaliya, Rajpal, Gajhesingh, Rajsingh S/o Chetram, Gyanendra singh & Surendra singh S/o Ratanlal, Narender singh, Ajit singh, Ransingh, Jagveer singh, Uday singh S/o Bhagwat & Smt. Ramkali W/o Late. Bhagwat R/o Bambawad. Rohan Electronic Pvt Ltd Through Madhusoodan Sharma S/o Shri Ramgopal Sharma R/o 1/18 Safdarjang Development Area New Delhi.
				704/2	Private	Agriculture	169.8	Hari singh & Sindhu S/o Gajraj, Ramveer S/o Rajveer, Chatar singh S/o Naipal, Chetram S/o Kaliya, Rajpal, Gajhesingh, Rajsingh S/o Chetram, Gyanendra singh & Surendra singh S/o Ratanlal, Narender singh, Ajit singh, Ransingh, Jagveer singh, Uday singh S/o Bhagwat & Smt. Ramkali W/o Late. Bhagwat R/o Bambawad. Rohan Electronic Pvt Ltd Through Madhusoodan Sharma S/o Shri Ramgopal Sharma R/o 1/18 Safdarjang Development Area New Delhi.
				705	Govt	Nali	740.7	
				707	Private	Agriculture	1379.0	Smt. Kanta Devi W/o Rajendra Singh R/o villager Rohan Electronics Pvt. Ltd. Through Sh. Madhusoodan Sharma S/o Shri Ramgopal Sharma R/o C-1/18 Safdarjung Development Area New Delhi Dalip S/o Raja Rai, Jagat Singh and Ram Bhool S/o Prahlad Singh, Ramvati W/o Ram Bhool Gajendra Singh and Chaman Singh S/o Ramphal R/o Villager

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				711	Private	Agriculture	6.1	<p> Singh & Sindhu S/o Jagdeep Singh S/o Rajveer, Jagdeep Singh S/o Naipal, Jagdeep Singh S/o Kaliya, Rajpal, Jagdeep Singh S/o Rajsingh S/o Jagdeep Singh S/o Gyanendra Singh & Jagdeep Singh S/o Ratanlal, Jagdeep Singh S/o Ajit Singh, Jagdeep Singh S/o Jagveer Singh, Jagdeep Singh S/o Bhagwat & Jagdeep Singh S/o Kali W/o Late. Jagdeep Singh S/o Bambawad. Jagdeep Singh S/o Electronic Pvt Ltd Jagdeep Singh S/o Madhusoodan Jagdeep Singh S/o Shri Ramgopal Jagdeep Singh S/o 1/18 Safdarjang Jagdeep Singh S/o New Area New Delhi. </p>
				725	Private	Agriculture	6.1	<p> Jagdeep Singh S/o Devi W/o Lekharaj, Jagdeep Singh S/o Sheodan Jagdeep Singh S/o Nain Singh, Jagdeep Singh S/o Airdal Giriraj Jagdeep Singh S/o Giriraj Singh S/o Jagdeep Singh S/o Pawan Singh, Jagdeep Singh S/o Richpal, Jagdeep Singh S/o Gurprasad, Jagdeep Singh S/o Chanan Jagdeep Singh S/o Manshagadhi Jagdeep Singh S/o Jagmaal S/o Jagdeep Singh S/o Mukanda S/o Jagdeep Singh S/o Mahavir S/o Bihari Jagdeep Singh S/o Afiaatoon S/o Jagdeep Singh S/o Vishesh Kumar Jagdeep Singh S/o Yadram Jagdeep Singh S/o Late Bhag Jagdeep Singh S/o Villager G.N. Electro Jagdeep Singh S/o Through Shri. Jagdeep Singh S/o Sharma Shri. Jagdeep Singh S/o Rakesh Sharma R/o C - Jagdeep Singh S/o Afterjung Development Jagdeep Singh S/o New Delhi </p>
				726	Private	Agriculture	3.	<p> Jagdeep Singh S/o sharma S/o Jagdeep Singh S/o R/oC-1/18, Jagdeep Singh S/o Rajpal, Ganeshi Jagdeep Singh S/o Smt. Jagdeep Singh S/o W/o Late. Bhag Jagdeep Singh S/o Vishesh kumar, Jagdeep Singh S/o Jagdeep Singh S/o Mishrilal S/o Jagdeep Singh S/o Dallupura, Jagdeep Singh S/o Manish S/o Jagdeep Singh S/o Village </p>
				727	Private	Agriculture	2.	<p> Jagdeep Singh S/o Mangal Sain Jagdeep Singh S/o Preet vihar New Jagdeep Singh S/o Jagdeep Singh S/o Mamraj S/o Dhal Jagdeep Singh S/o Gopal & Jagdeep Singh S/o W/o Late. Jagdeep Singh S/o Village </p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				728	Private	Agriculture	3155.2	Khajan S/o Hoshiyar, Neta & Aidal S/o Matru, Shriram S/o Narayan & Mahaveer, Anandi, Yaadram S/o Aidal, Pawan singh, Rajpal, Ganeshi S/o Richhpal R/o Village. Arvind Malik S/o Dev Datt Malik R/o C 1/18 Safdarjang Development Area New Delhi.
				730	Private	Agriculture	739.5	Brahmpal singh S/o Chandrapal Singh R/o Tilapta karanwaas
				732	Private	Agriculture	168.4	Smt. Shanti Devi W/o Lekharaj Singh, Lakhpat S/o Sheodan & Sheoraj S/o Nain Singh, Yadram S/o Aidal Giriraj Singh, Mamraj Singh S/o Saahab Singh Pawan Singh, Rajpal Ganeshii S/o Richpal, Smt. Balli W/o Gurprasad, Dinesh Kumar S/o Chanan Ram R/o Manshagadhi Bhatinda Jagmaal S/o Raghuvir, Mukanda S/o Robhan, Mahavir S/o Bihari Brahma & Aflaton S/o Nanak, Ashok, Vishesh Kumar Lakhmichand S/o Yadram Satyavati W/o Late Bhag Singh R/o Villager G.N.Electro Plast Pvt. Ltd. Through Shri. Madhusoodan Sharma Shri. Ram Prakash Sharma R/o C - 1/18 Safdarjung Development Area New Delhi
				733	Private	Agriculture	206.7	Jai prakash, Vijaypal, Rajender, Radhelal S/o Chiranji, Ved prakash, Jai prakash S/o Jamadaar, Pratap @ Prakash chand S/o Khachedu, Rambhool, Raghuwar S/o Musaddi, Suresh chand, Omprakash S/o Harnarayan & Santosh S/o Chhidda R/o Village
				1052/1	Private	Agriculture	8148.5	Aaskaran S/o Khachedu, Smt. Kanti W/o Ramphal & Satyaveer, Chanderpal S/o Ramphal, Shanti devi W/o Hemsingh, Hemsingh S/o Khachedu R/o Village

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1059	Private	Agriculture	212.5	Hem Singh S/o Khachedu R/o Village
				1065	Private	Agriculture	95.8	Ravinder Singh S/o Mishrilal R/o Dallupura
				1066	Private	Agriculture	1263.3	Mangat S/o Rambhool & Chanderpall Singh, Dalveer Singh, Mahender Singh S/o Shyamlal R/o Village
				1067	Private	Agriculture	3158.7	Brahmpal Singh S/o Chanderpall Singh R/o Tilapta Karanwaas, Hem Singh S/o Khachedu R/o Village
				1068	Private	Agriculture	1817.6	Brahmpal Singh S/o Chanderpall Singh R/o Tilapta Karanwaas, Hem Singh S/o Khachedu R/o Village
				1069	Private	Agriculture	2639.9	Hem Singh S/o Khachedu R/o Village, Smt. Shanti W/o Hem Singh R/o Village Shyam Singh S/o Kirpa
				1070	Private	Agriculture	1809.2	Hem Singh S/o Khachedu, Smt. Shanti W/o Hem Singh R/o Village
				1071	Private	Agriculture	1739.6	Hem Singh S/o Khachedu R/o Village
				1072	Private	Agriculture	5595.7	Arvind Malik S/o Devdatt Malik R/o C 1/18 Safdarjang Development Area New Delhi
				1076/1	Private	Agriculture	35.1	Chaman S/o Pyare, Bhag Singh S/o Ghanshyam & Shankar, Naurang, Rajkumar S/o Mahipal R/o Village
				1077	Private	Agriculture	3941.3	Mamchand S/o Horam R/o Bambawad, Arvind Malik S/o Devdatt Malik R/o C 1/18 Safdarjang Development Area New Delhi
				1078/1	Private	Agriculture	2639.5	Smt. Suman Gupta W/o Harish Gupta R/o Dadri, Smt. Krishna Devi W/o Surender Kumar R/o Ghaziabad, Sarwan & Pradeep S/o Babu R/o Village
				1078/2	Private	Agriculture	735.2	Smt. Suman Gupta W/o Harish Gupta R/o Dadri, Smt. Krishna Devi W/o Surender Kumar R/o Ghaziabad, Sarwan & Pradeep S/o Babu R/o Village
				1094/1	Private	Agriculture	1588.9	Brahmpal Singh S/o Chandrapalsingh R/o Tilapta Karanwaas & Smt. Gyavanti W/o Chhanga, Baljeet S/o Nayadar & Aftatoon & Brahma S/o Naagar, Shyamlal S/o Kripal R/o Village, Parmaal

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								S/o Rajaram R/o Badpura
				1095	Private	Agriculture	585.4	Arvind Malik S/o Devdatt Malik, Madhusoodan sharma S/o Ramprakash sharma R/o C 1/18 Safdarjang Development Area New Delhi
				1096/1	Private	Agriculture	453.8	Smt. Krishna Devi W/o Surender kumar R/o Ghaziabad
				1096/2	Private	Agriculture	83.3	Smt. Krishna Devi W/o Surender kumar R/o Ghaziabad
				1099	Private	Agriculture	275.4	Brahmpal singh S/o Chanderpal singh R/o Tilapta Karanwaas.
				1100	Private	Agriculture	2408.1	Arvind Malik S/o Devdatt Malik R/o C 1/18 Safdarjang Development Area New Delhi
				1101	Private	Agriculture	6639.9	Jugender singh S/o Nanhu singh R/o Sakipur
				1102/1	Private	Agriculture	1239.2	G. N. Electro Plast Pvt. Ltd. R/o C-1/18, Safdarjung Development Area New Delhi Chandrapal, Madanpal, Dharampal, Prempal S/o Shyamlal R/o Village
				1102/2	Private	Agriculture	1507.8	Shanti devi W/o Ishwar Das R/o Ghaziabad
				1105/1	Private	Agriculture	2622.2	Arvind Malik S/o Devdatt Malik, Madhusoodan sharma S/o Ramprakash sharma R/o C 1/18 Safdarjang Development Area New Delhi
				1105/2	Private	Agriculture	492.6	Arvind Malik S/o Devdatt Malik, Madhusoodan sharma S/o Ramprakash sharma R/o C 1/18 Safdarjang Development Area New Delhi
				1106	Private	Agriculture	725.9	Brahmpal singh S/o Chanderpal singh R/o Tilapta, Thansingh S/o Ramsaran, Devi S/o Prem singh, Kamal S/o Naubat, Karan singh, Uday singh, Jatan singh S/o Malkhan singh R/o Village
				1186	Private	Agriculture	4530.4	Smt. Kanti W/o Ramphal, Satyaveer & Chanderpal S/o Ramphal, Smt. Shanti Devi W/o Hem singh R/o Village

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1187	Private	Agriculture	3824.0	Smt. Kanti W/o Ramphal, Satyaveer & Chanderpal S/o Ramphal, Ranveer S/o Bani singh, Surajpal S/o Murla R/o Village, Kude S/o Khachedu.
				1188	Private	Agriculture	1985.5	Smt. Kanti W/o Ramphal, Satyaveer & Chanderpal S/o Ramphal R/o Village, Kude S/o Khachedu
				1193	Private	Agriculture	329.5	Underjeet S/o Gopichand, Rakumar, Pratap singh S/o Ramsingh R/o Village, Mahaveer singh S/o Sheolal R/o Achheja
				1194	Private	Agriculture	5841.2	Kude S/o Khachedu, Satyaveer S/o Sheolal R/o Village, Dharampal S/o Mahender Singh S/o Nawab Singh S/o Ranveer S/o Bani singh R/o Village
				1195	Private	Agriculture	531.1	Nawab singh S/o Harvansh, Ranveer S/o Bani singh R/o Village
				1204	Private	Agriculture	463.1	Mahender singh S/o Taalab singh R/o Village
				1205	Private	Agriculture	2585.1	Dharampal S/o Harlal, Mahender singh S/o Taalab singh R/o Village
				1206	Private	Agriculture	2331.7	Dharampal S/o Harlal, Dalveer S/o Shyam singh R/o Village, Mahaveer S/o Sheolal R/o Achheja
				1207/1	Private	Agriculture	3652.6	Dalveer S/o Shyam singh R/o Village, Kishanveer singh S/o Lachhu singh R/o Badpura
				1207/2	Private	Agriculture	1168.4	Manaveer S/o Sheolal R/o Achheja
				1208/2	Private	Agriculture	738.4	Dalveer S/o Shyam singh R/o Village, Mahaveer S/o Sheolal R/o Achheja
				1209/1	Private	Agriculture	1443.0	Chhailu & Harichand, Manarchand & Ratanlal S/o Ramgopal, Jasveer singh, Suresh singh, Mahesh singh, Farnesh singh S/o Ballesingh, Jaichandi W/o Late, Balie singh & Dharmveer, Jaggu S/o Chhailu R/o Badpura

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1209/2	Private	Agriculture	2830.5	Chhailu & Harichand, Meharchand & Ratanlal S/o Ramgopal. Jasveer singh, Suresh singh, Mahesh singh, Farnesh singh S/o Ballesingh. Jaichandi W/o Late. Balle singh & Dharmveer, Jaggu S/o Chhailu R/o Badpura
				1213	Private	Agriculture	1763.4	Hem singh S/o Mamraj R/o Village, Mishrilal S/o Harkaran R/o Dallupura & Smt. Kashmiri W/o Girwar R/o Shamli Tehsil Sikandrabad, Dinesh kumar S/o Chananlal R/o Mandi Bhatinda & Arvind Malik S/o Devdatt Malik R/o 1/18 Safdarjang Development Area New Delhi, Tejpal S/o Roshan singh R/o Peepal ka Surajpur, Dhanesh Kumar S/o Ram Autar R/o II - F 31 Nehru Nagar Ghaziabad
				1216	Private	Agriculture	782.6	Smt. Munesh W/o Sukhvir Singh, Smt. Radha Rani W/o Rakesh Singh, Vinay Pratap Singh Shishodiya (Age 3 yrs.) u/g Mother Radha Rani S/o Rakesh Singh.
				1217/1	Private	Agriculture	3280.4	Devkaran S/o Apla R/o Badpura
				1217/2	Private	Agriculture	78.1	Devkaran S/o Apla R/o Badpura
				1218	Private	Agriculture	1469.8	Devkaran S/o Apla R/o Badpura
				1219	Private	Agriculture	196.9	Devkaran S/o Apla R/o Badpura
				1221	Private	Agriculture	229.4	Devkaran S/o Apla, Lakhichand S/o Sampat R/o Badpura, Avtaar, Gajender S/o Chhitar Mal R/o Village
				1222	Private	Agriculture	3032.3	Smt. Shanti devi W/o Ishwar Das Bansal R/o 3 F 160 Nehru Nagar Ghaziabad
				1234/1	Private	Agriculture	3141.3	Rajsingh S/o Charansingh R/o Village.
				1235	Private	Agriculture	3359.3	Shri Krishna S/o Gajendrasingh R/o Village
				1236	Private	Agriculture	3491.5	Shri Krishna S/o Gajendrasingh R/o Village.
				1249	Private	Agriculture	8.0	Pale S/o Risal R/o Badpura

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1250	Private	Agriculture	500.6	Pale, Dhanpal S/o Risal, Badle S/o Nihal R/o Badpura
				1251	Private	Agriculture	661.7	Badle S/o Nihal, Narendra singh, Vinod kumar S/o JaiSingh R/o Badpura
				1252	Private	Agriculture	818.7	Badle S/o Nihal, Narendra . singh & Vinod kumar S/o Jai singh R/o Badpura
				1253/3	Private	Agriculture	1796.6	Narender singh, Vinod kumar S/o Jai singh, Badle S/o Nihal R/o Badpura, Dharmveer S/o Harlal R/o Village
				1254/1	Private	Agriculture	440.5	Ulaisingh, Badle S/o Nihal singh, Khajan S/o Rajaram, Jitram, Sardar singh, Dharam veer S/o Harlal, Vijender singh, Vikram singh S/o Teka, Smt. Girwati W/o Teka R/o Badpura
				1254/2	Private	Agriculture	1084.4	Shrikrishna S/o Gajenderpal R/o Village
				1255	Govt	Nala	1140.7	
				1256	Private	Agriculture	541.8	Sunder sharma S/o Shri Omprakash sharma R/o Habibpur & Tejpal sharma S/o Parmanand sharma R/o Baidpura, Baljeet kumar S/o Moolchand sharma R/o Jarcha Road Kasba Dadri, Dhanni S/o Rajaram R/o Badpura
				1257/1	Private	Agriculture	757.8	Dhanni, Khajan singh S/o Rajaram R/o Badpura
				1257/2	Private	Agriculture	539.5	Khajan S/o Rajaram R/o Badpura
				1258/2	Private	Agriculture	6296.2	Smt. Shanti Devi W/o Ishwar Das Bansal R/o 3 F 160 Nehru Nagar Ghaziabad, Sunder sharma S/o Omprakash sharma R/o Habibpur, Tejpal S/o Parmanand sharma R/o Baidpura, Lalit kumar S/o Moolchand R/o Jarcha Road Dadri, Dhanni S/o Rajaram R/o Badpura, Ishwar Lal S/o Ram Bakhsha R/o Ghaziabad, Khajan S/o Rajaram R/o Badpura
				1258/1	Private	Agriculture	2060.2	Shri Sunder sharma S/o Shri Omprakash sharma R/o Habibpur, Tejpal sharma S/o

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Parmanand R/o Baidpura & Lalit kumar S/o Moolchand garg R/o Jarcha Road Dadri, Khajan, Dhanni S/o Rajaram R/o Badpura
				1258/3	Private	Agriculture	1045.5	Abdul S/o Mehmood Hasan & Mohid. Sajjad S/o Haji Abdulrahim R/o Pitampura New Delhi
				1261/1	Private	Agriculture	319.9	Kashiram S/o Bodi, Khajan S/o Rajaram, Viram S/o Boda, Bhagmal S/o Bodi R/o Badpura
				1262	Private	Agriculture	1130.0	Khajan S/o Rajaram, Viram S/o Boda, Kashiram S/o Bodi R/o Baidpura
				1263/1	Private	Agriculture	211.1	Kashiram S/o Bodi, Viram S/o Boda R/o Badpura, Sudhanshu garg @ Banti S/o Moolchand R/o Dadri, Suresh singh S/o Balli singh, Ranveer S/o Heti R/o Village
				1333/4	Private	Agriculture	219.1	Surajmal & Hansa, Mansha S/o Munshi & Sukhveer S/o Balli R/o Badpura
				1342	Private	Agriculture	81.0	Baljeet singh S/o Ramswaroop, Prempal singh, Brajpal singh, Jaipal singh S/o Ramsingh, Krishnapal singh & Yogender singh, Narender singh, Sheralpal singh, Anekpai singh S/o Rajpal singh & Jagmal singh, Dharamveer singh, Satyaveer singh, Jagveer singh & Rajsingh S/o Ransingh & Rajaram S/o Raghuveer R/o Village
				1343	Private	Agriculture	3669.4	Jatansingh & Kishanswaroop & Sacche singh, Rakam singh S/o Shobharam R/o Badpura
				1344	Private	Agriculture	700.5	Tukki S/o Vedram R/o Village, Lokesh S/o Mitthan Lal R/o Ayodhyaganj Dadri
				1345	Private	Agriculture	1555.5	Rameshchand S/o Pannalal R/o Dadri
				1346	Private	Agriculture	232.5	Dhiraj singh, Surajpal @ Sarojpal, Niranjan singh & Yash pal singh, Sudesh singh S/o Nanak singh, Arvind singh, Alok singh S/o Kataar singh R/o Village

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1344	Private	Agriculture	27	Shri. Vedram, Jagatram R/o Raghuvir R/o Badpura
				1345	Private	Agriculture	17	Shri. S/o Raghuvir R/o Badpura
				1356	Private	Agriculture	17	Shri. S/o Ishirya R/o Badpura
				1357	Private	Agriculture	10	Shri. chand S/o Mitthanlal, Smt. Sadhna W/o Ramesh Chand R/o Dadri, Smt. Chakpyari W/o Harvansh R/o Village
				1358/1	Private	Agriculture	10	Shri. S/o Randhir, Balveer S/o Sukki, Raghuvir S/o Chandhan, Subedar S/o Chandhan, Shyamlal S/o Bhag S/o Village, Bhim S/o Vinod kumar S/o Chandwaroop, Smt. Rajpali S/o Late. Santram R/o Nai S/o Delhi, Manish (Age 7 yrs.) Sumit (Age 5 yrs.), Manish (Age 3 yrs.) S/o Nathi S/o Motrier Sitaphali, Jaipal S/o Kevti. Meghsingh, Jaiveer S/o Shyamlal, Satyawati W/o Jaiveer, Devender S/o Azad, S/o Singh, Pohtas, Begraj S/o S/o Jagilal Pushpender singh S/o Vasudev, Sarwati W/o Vasudev R/o Village
				1374/2	Private	Agriculture	4	Shri. chand S/o Mitthanlal, Smt. Sadhna W/o Ramesh Chand R/o Dadri, Smt. Chakpyari W/o Harvansh R/o Village
				1378	Private	Agriculture	5	Shri. S/o Mussadi R/o Village
				1388	Private	Agriculture	6	Shri. Singh S/o Bholor R/o S/o Opta Karanwas
				1389/1	Private	Agriculture	4	Shri. S/o Mussadi R/o Village
				1465	Private	Agriculture	4	Shri. S/o Rajveer S/o S/o Jagirath & Smt. Sudharani S/o Chandarpal R/o Village
				1466	Private	Agriculture	2	Shri. chand S/o Mitthanlal, Smt. Sadhna W/o Rameshchand R/o Dadri, Smt. Chakpyari W/o Harvansh R/o Village
				1467	Private	Agriculture	4	Shri. S/o Rajveer S/o S/o Jagirath & Smt. Sudharani S/o Chandarpal R/o Village
				1468	Private	Agriculture	2	Shri. Jagatram, Bhim singh, S/o Avaram & Thanderam S/o S/o Ansaran R/o Badpura

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1469	Private	Agriculture	2517.4	Dhiraj singh, Surajpal @ Sarojpal, Niranjan singh, Yash pal singh, Sudesh singh S/o Nanak singh, Arvind singh, Alok singh S/o Kataar singh R/o Village
				1470	Private	Agriculture	874.9	Dhiraj singh, Surajpal @ Sarojpal, Niranjan singh, Yash pal singh, Sudesh singh S/o Nanak singh, Arvind singh, Alok singh S/o Kataar singh R/o Village
			(2) Khatana Dheerkheda	487/1	Private	Agriculture	767.2	Ramchander S/o Jahariya R/o Milak Khatana
				488	Private	Agriculture	7140.4	Ramchander S/o Jahariya & Vasanta S/o Sunheri, Rajender and Vijender S/o Hardan, Smt. Reshamdevi W/o Hardan R/o Milak Khatana
				487/5	Private	Agriculture	62.5	Vasanta S/o Sunheri R/o Milak Khatana
				489/2	Private	Agriculture	9248.2	Vasanta S/o Sunheri, Rajender and Vijender S/o Hardan, Smt. Reshamdevi W/o Hardan, Layakram S/o Guljari, Ramjilal S/o Hajari, Jileram S/o Ramjilal, R/o Milak Khatana
				489/1	Private	Agriculture	372.3	Layakram S/o Guljari R/o Milak Khatana
				490	Private	Agriculture	2375.5	Layakram S/o Guljari, Ramjilal S/o Hajari, Omprakash S/o Daulat, Badle S/o Dansahaye R/o Milak Khatana
				506	Private	Agriculture	2043.1	Bhajanlal S/o Lalsingh, Omprakash S/o Daulat, Badle S/o Dansahaye R/o Milak Khatana
				507	Private	Agriculture	1862.9	Bhajanlal S/o Lalsingh, Ramsaransingh, Bhopalsingh S/o Khachedu, Badle S/o Dansahaye R/o Milak Khatana, Satveer, Ramkumar, Jagveer S/o Srichand Res Bairangpur Nai basti & Jagmal S/o Ramsaran R/o Kirachpur @ Kailashpur
				508	Private	Agriculture	8832.7	Satveer, Ramkumar, Jagveer S/o Srichand Res Bairangpur & Jagmal S/o Ramsaran R/o Kirachpur @ Kailashpur Omprakash S/o Daulat, Badle S/o Dansahaye Ramjilal S/o Hajari, Jileram S/o Ramjilal R/o Milak Khatana
				509	Private	Agriculture	404.9	Jileram S/o Ramjilal R/o Milak Khatana

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				505/2	Private	Agriculture	28.8	Bhajanlal S/o Lalsingh R/o Milak Khatana
				505/3	Private	Agriculture	2038.6	Bhajanlal S/o Lalsingh, Ramsaran Bhopal singh S/o Khachedu R/o Milak Khatana
				505/4	Private	Agriculture	1341.9	Bhajanlal S/o Lalsingh, Sheeshpal S/o Ramnath, Kishanlal S/o Ramphal R/o Milak Khatana
				505/5	Private	Agriculture	3995.8	Kishanlal S/o Ramphal, Ramsaran, Bhopal S/o Khachedu, Bhajanlal S/o Lalsingh, Rohtas, Ravinder, Bijender S/o Rameshwar, Smt. Kripali W/o Late. Rameshwar, Hari Kishan, Jagbir S/o Sulli R/o Milak Khatana
				516	Private	Agriculture	3175.5	Bhajanlal S/o Lalsingh, Ramsaran, Bhopal singh S/o Khachedu R/o Milak Khatana
				518/1	Private	Agriculture	1614.9	Rohtas, Ravinder, Bijender S/o Rameshwar, Shrimati. Kripali W/o Late. Rameshwar, Harikishan, Jagveer S/o Sulli R/o Milak Khatana
				518/2	Private	Agriculture	3126.6	Kishanlal S/o. Ramphal, Ramchandra S/o Jahariya, Harikishan, Jagbir S/o Sulli, Rohtas, Ravinder, Bijender S/o Rameshwar, Smt. Kripali W/o Late. Rameshwar R/o Milak Khatana
				520/1	Private	Agriculture	3666.2	Brajpal, Mahilsingh S/o Naubat R/o Milak Khatana, Rajender, Veerpal S/o Amichand R/o Imliya Hukamsingh S/o Jaipal R/o Village, Rajpalsingh S/o Bhagmal, Meharchand, Ranveer S/o Sulli R/o Milak Khatana
				520/2	Private	Agriculture	2854.4	Hukamsingh S/o Jaipal R/o Village, Rajpalsingh S/o Bhagmal, Meharchand, Rajveer S/o Sulli R/o Milak Khatana, Brajpal, Mahilsingh S/o Naubat R/o Milak Khatana, Rajender, Veerpal S/o Amichand R/o Imliya
				520/3	Private	Agriculture	3.0	Ghanshyam, Mahipal, Lekhraj, Chahatram, Dataram S/o Jora R/o Milak Khatana
				521	Private	Agriculture	897.9	Hukamsingh S/o Jaipal R/o Village, Rajpalsingh S/o Bhagmal, R/o Milak Khatana
				522	Private	Agriculture	830.1	Brajpal, Mahilsingh S/o Naubat R/o Milak Khatana, Rajender, Veerpal S/o Amichand R/o Imliya Hukamsingh S/o Jaipal R/o Village, Rajpalsingh S/o

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Bhagmal, Ghanshyam, Mahipal, Lekhraj, Chahatram, Dataram S/o Jora, Rohtas, Ravinder, Bijender S/o Rameshwar, Smt. Kripali W/o Rameshwar R/o Milak Khatana
				523/1	Private	Agriculture	14.9	Ramchander S/o Jahriya R/o Milak Khatana
				523/2	Private	Agriculture	3321.4	Ramchander S/o Jahriya Kishanlal S/o Ramphal R/o Milak Khatana
				524	Private	Agriculture	2135.5	Ramchander S/o Jahriya, Brajpal, Mahisingsh S/o Naubat R/o Milak Khatana, Rajender, Veerpal S/o Amichand R/o Imliya
				529	Private	Agriculture	6665.6	Vijay kumar S/o Yadram R/o Behloipur, Suresh chand S/o Sahiram, R/o Village, Meharchand, Rajvir S/o Sulli R/o Milak Khatana
				534	Private	Agriculture	2024.9	Pohapsingh S/o Shriram, Ghanshyam, Mahipal, Lekhraj, Chahatram, Dataram S/o Jora R/o Milak Khatana
				535	Private	Agriculture	3189.8	Rajveersingh S/o Asharam R/o Nai Basti
				536	Private	Agriculture	5559.8	Rajveersingh S/o Asharam R/o Nai Basti, Sureshchand S/o Sahiram R/o Village, Vijaykumar S/o Yaadram R/o Behloipur, Meharchand, Rajveer S/o Sulli, Pohapsingh S/o Shriram, Ghanshyam, Mahipal, Lekhraj, Chahatram, Dataram S/o Jora R/o Milak Khatana
				566	Private	Agriculture	1216.0	Veer singh S/o Amichand R/o Nai Basti
				565	Private	Agriculture	2099.4	Veersingh S/o Amichand, Nirottam prasad S/o Nityanand R/o Nai Basti
				564	Private	Agriculture	1232.8	Nirottam prasad S/o Nityanand, Rampat S/o Harisingh R/o Nai Basti
				568	Private	Agriculture	3929.2	Veersingh S/o Amichand, Nirottam prasad S/o Nityanand, Charansingh, Brahmsingh S/o Shahmal, Kailash S/o Shankar Res. Nai Basti
				563	Private	Agriculture	6972.4	Ramchander, Dhanpal S/o Luttas, R/o Nai Basti, Bhimkaur W/o Gangabali R/o Loni
				620/2	Private	Agriculture	1516.3	Giriraj S/o Kesri R/o Nai Basti,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				620/1	Private	Agriculture	904.1	Omraj S/o Kesri, Navneet S/o Nawabsingh, Smt. Ghosan W/o Late. Nawabsingh R/o Nai Basti.
				621/2	Private	Agriculture	2976.1	Omraj S/o Kesri, Kailash S/o Shankar R/o Nai Basti.
				619/1	Private	Agriculture	2517.1	Navneet S/o Nawabsingh, Smt. Ghosan W/o Late. Nawabsingh R/o Nai Basti.
				619/2	Private	Agriculture	1140.0	Hamamurti, Salek chand, Parneshchand, Sahabram S/o Ramkala, Navneet S/o Nawabsingh, Ghosan W/o Late. Nawabsingh R/o Nai Basti.
				618/1	Private	Agriculture	870.1	Khemchand, Harprasad S/o Khavali, Fattan S/o Ramsingh, Veersingh, GangaRam S/o Nai Basti.
				618/2	Private	Agriculture	1733.5	Fattan, Tula S/o Ramsingh, Veersingh, Ganga Ram S/o Nai Basti.
				624/2	Private	Agriculture	2894.6	Manveer, Ankit S/o Jileram, Vijaypal, Jhabbar Singh S/o Risal singh, Leelasingh S/o Harnarayan, R/o Nai Basti.
				625/2	Private	Agriculture	1650.0	Baleram, Jileram S/o Tugalsingh R/o Kudi, Meerut, Vijaypal, Jabbarsingh S/o Risal singh, Leelasingh S/o Harnarayan, R/o Nai Basti.
				625/1	Private	Agriculture	380.0	Shivnarayan S/o Jhilar, Risal S/o Shivdayal, Ramchander, Godhu, Bhule, Hemraj S/o Nandram, Badle S/o Khemchand, Ghanshyam, Balveer S/o Banshi R/o Nai Basti.
				625/5	Private	Agriculture	1732.5	Baleram, Jileram S/o Tugalsingh R/o Kudi Meerut, Vijaypal, Jabbarsingh S/o Risal singh, Leelasingh S/o Harnarayan R/o Nai Basti.
				625/6	Private	Agriculture	3210.8	Baleram, Jileram S/o Tugalsingh R/o Kudi Meerut, Vijaypal, Jabbarsingh S/o Risal singh, Leelasingh S/o Harnarayan, R/o Nai Basti.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Gautam Budh Nagar	(1) Jaganpur Afzalpur	282	Private	Agriculture	2623.0	Girdharee S/o Hetram R/o Amarpur
				280	Private	Agriculture	165.0	Girdharee S/o Hetram, Lekhraj S/o Yadram R/o Amarpur
				838	Private	Agriculture	7478.0	Girdharee S/o Hetram, Rahmattula S/o Wazir R/o Amarpur,
				837	Private	Agriculture	6081.0	Rahamtulla S/o Wazir, Dharampal Singh & Veer Singh S/o Premraj Singh & Smt. Satyawati (Satto) W/o Jagpal Singh R/o Amarpur
				831	Private	Agriculture	2425.0	Dharampal Singh, Veer Singh S/o Premraj Singh & Smt. Satyawati (Satto) W/o Jagpal Singh R/o Amarpur, Bhup Singh S/o Sanwalia Lekhraj Singh S/o Ramcharan, Mahipal S/o Ratiram R/o Chakrasenpur Gautam Budh Nagar
				830	Private	Agriculture	3117.0	Dharampal Singh & Veer Singh S/o Premraj Singh, Smt. Satyawati (Satto) W/o Jagpal Singh R/o Amarpur, Lekhraj Singh S/o Ramcharan Singh & Bhup Singh S/o Sanwalia, Mahipal S/o Ratiram R/o Chakrasenpur Gautam Budh Nagar
				829	Private	Agriculture	2293.0	Lekhraj Singh S/o Ramcharan Singh & Bhup Singh S/o Sanwalia, R/o Chakrasenpur Mahipal S/o Ratiram R/o Gautam Budh Nagar
				819	Private	Agriculture	765.0	Mahaveer S/o Ramjilal & Smt Anto W/o Ramjilal, Lakhpat S/o Sunge @ Fateh Singh R/o Nawada
				817	Private	Agriculture	14628.0	Jagdish, Vijender Singh & Devendar Singh S/o Dharam Singh Lakhpat S/o Sunge @ Fateh Singh R/o Nawada
				797	Public	Road	1176.0	Gram Samaj
				940	Private	Agriculture	827.0	Khoobchand S/o Sahta R/o Nawada
				945	Private	Agriculture	865.0	Lekhi S/o Khoobi R/o Nawada, Premchand & Sunil Kumar S/o Raghunath Prasad R/o Patpada Dankaur
				944	Private	Agriculture	1233.0	Lekhi S/o Khoobi R/o Nawada
				935	Private	Agriculture	72.0	Premchand & Sunil Kumar S/o Raghunath Prasad R/o Patpada Dankaur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				955	Private	Agriculture	4522.0	Dayaram Singh & Vikram Singh S/o Kanni Singh @ Karan Singh Prasadilal, Ramavtar, Ramesh Dayal, S/o Dattu, R/o Nawada, Pamchandrar S/o Nainsingh, Netram S/o Chhaya & Janakraj S/o Chetram
				957	Private	Agriculture	296.0	Dayaram Singh & Vikram Singh S/o Kanni Singh @ Karan Singh R/o Nawada
				958	Private	Agriculture	2375.0	Netram S/o Chhaya R/o Nawada
				990	Private	Agriculture	5343.0	Jaikishan, Raghubar Singh, Balraj & Harender Singh Netram S/o Chhaya, R/o Nawada Munshi S/o Harpat Singh R/o Mohiddinpur
				991	Private	Agriculture	1281.0	Munshi S/o Harpat Singh R/o Mohiddinpur, Netram S/o Chhaya R/o Nawada
				1030	Private	Agriculture	4232.0	Rajender Singh & Vijaypal Singh S/o Jairam Singh, Jairam Singh S/o Munnalal R/o Dallupura Delhi
				1032	Public	Road	582.0	Gram Samaj
				1023	Private	Agriculture	2814.0	Rajender Singh & Vijaypal Singh S/o Jairam Singh, Jairam Singh S/o Munnalal R/o Dallupura Delhi
				1029	Private	Agriculture	1969.0	Rajender Singh & Vijaypal Singh S/o Jairam Singh & Jairam Singh S/o Munnalal R/o Dallupura Delhi
				1023	Private	Agriculture	538.0	Rajender Singh & Vijaypal Singh S/o Jairam Singh, Jairam Singh S/o Munnalal R/o Dallupura Delhi
				1027	Private	Agriculture	2462.0	Rajender Singh & Vijaypal Singh S/o Jairam Singh, Jairam Singh S/o Munnalal R/o Dallupura Delhi
				1026	Private	Agriculture	1771.0	Rajender Singh & Vijaypal Singh S/o Jairam Singh, Jairam Singh S/o Munnalal R/o Dallupura Delhi
				1024	Private	Agriculture	2934.0	Rajender Singh & Vijaypal Singh S/o Jairam Singh, Jairam Singh S/o Munnalal R/o Dallupura Delhi
				1025	Private	Agriculture	7698.0	Rajender Singh & Vijaypal Singh S/o Jairam Singh, Jairam Singh, S/o Munnalal R/o Dallupura Delhi, Netram S/o

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Chhaya R/o Nawada
			(2) Vela Kalan	75/8	Private	Agriculture	37616.5	Shri Prakash S/o Deewan Singh R/o Nai Basti, Acharya Vachaspati S/o Ram Prasad, Rajkumar Sharma S/o Pyralal R/o Bhujkhada, Anand Sharma S/o Ram Prasad, Vinod Sharma, Manoj S/o Yadram Nai Basti, Janaki Prasad S/o Gadiram, Niteen, Gourav S/o Vedprakash, Dev Sharma S/o Ramprasad, Khajan Dutt sharma S/o Patram R/o Nibhchana
				33	Private	Agriculture	93.0	Ashok Kumar S/o Mukut Lal, Mridula W/o Arvind Kumar, R/o Village Anand Sharma S/o Ramprasad, Nitin & Gaurav S/o Vedprakash R/o Nai Basti Bulandshahr
				36	Private	Agriculture	1686.0	Ashrafi Devi W/o Amar Singh, Rajrani D/o Ghanshyam Das R/o Bihari Colony Delhi, Smt. Shanta Varma D/o Shivcharan Lal R/o Aligarh, Murti W/o Banarsidas R/o Jewar
				39	Private	Agriculture	2870.1	Tota S/o Pyare R/o Fatehpur Atta, Gajraj S/o Balluram R/o Tuglakabad Delhi
				40	Private	Agriculture	6219.0	Ekram & Gafoor S/o Allah Mehar, Farimuddin & Shahjad Khan S/o Babu R/o Fatehpur Atta, Shakuran W/o Babu R/o Fatehpur Atta & Allamehar S/o Masua etc
			(3) Gunpura	16	Private	Agriculture	778.5	Tekchand S/o Sukhram R/o Atta Gujran
				21	Private	Agriculture	1579.4	Sarjeet S/o Chetram R/o Village, Satyaveer S/o Sarupa R/o Dewala
				22	Private	Agriculture	604.8	Sarjeet S/o Chetram R/o Village
				25	Private	Agriculture	4070.1	Dharamveer, Sahiram, Satyavir S/o Sarupa R/o Dewla, Sarjeet S/o Chetram R/o Village
				26	Private	Agriculture	563.9	Sahiram S/o Sarupa R/o Dewla
				98	Private	Agriculture	1320.0	Yogender S/o Ramsaroop, Mahendra, Virender S/o Phool Singh R/o Village

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Agriculture		Shreeveer Ramphal, Sarjeet S/o Sarupa R/o Sarjeet S/o Chetram Village
			(4) Fatehpur atta			Agriculture		Shreepal S/o Jahariya R/o Mandawali
						Agriculture		Shree Singh S/o Harchandi Moonjkheda & Dharampal Jahariya R/o Mandawali Shahar Mohd., Noor Ilahi S/o Dank R/o Village
						Agriculture		Shree Singh S/o Harchandi Moonjkheda
						Agriculture		Shree Singh S/o Harchandi Moonjkheda, Noor Ilahi Shahar, Khatto Shahar R/o Village
						Agriculture		Shree Singh S/o Harchandi Moonjkheda
						Agriculture		Shree Singh S/o Harchandi Moonjkheda, Sachin Shahar Sandip kumar (Minors) S/o Nawab Singh Smt Sunita Devi Shree Nawab Singh & Sunita Shree w/o Nawab Singh, Shree Swar, Mukesh kumar S/o Shreepal, Taj Mohd. S/o Abdul Shree Jile S/o Sarsari, Shree Muddin Shahzad S/o Shree R/o Village Nanoo Khan, Shree Muddin S/o Abdul Shree R/o Dankaur,
						Agriculture		Shree Singh S/o Harchandi Moonjkheda, Sachin Shahar Sandip kumar (Minors) S/o Nawab Singh Smt Sunita Devi Shree Nawab Singh & Sunita Shree w/o Nawab Singh, Shree Swar, Mukesh kumar S/o Shreepal, Taj Mohd. S/o Abdul Shree Jile S/o Sarsari, Shree Muddin S/o Mumraz R/o Village Nanoo Khan, Shree Muddin S/o Abdul Shree R/o Dankaur,
						Agriculture		Shree Singh S/o Harchandi, Shree Kumar, Sandip kumar (Minors) S/o Nawab Singh Smt Sunita Devi Shree Nawab Singh & Sunita Shree w/o Nawab Singh, Shree Swar, Mukesh kumar S/o Shreepal R/o Moonjkheda

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				779/1	Private	Agriculture	3371.3	Bhulesingh S/o Harchandi R/o Moonjkheda, Sachin Kumar, Sandip kumar (minors). S/o Nawab Singh U/g Smt Sunita Devi W/o Nawab Singh & Sunita Devi W/o Nawab Singh, Baleshwar, Mukesh kumar S/o Brajpal, Noor Ilahi S/o Mubarik R/o Village, Khatto W/o Shahar R/o Village, Nanoo Khan, Nizzamuddin S/o Abdul Shakur R/o Dankaur
				876	Private	Agriculture	2513.9	Dharampal S/o Jahariya R/o Mandawali, Umar Mohd., S/o Mubarik, Noor Ilahi S/o Mubarik, Nazar Mohd., Irshad, Abbas, Insad S/o Ali Mohd., Smt. Bismillah W/o Ali Mohd., Noor Mohd, S/o Khan Bahadur etc Niaz Mohd., S/o Risal, Ausaf Ali, Jafar Ali, Sabir Ali S/o Makhani R/o Kakrala, Meenuddin S/o Abdul Aziz R/o Village, Kalua, Raees, Mohd., Shakeer, Sageer etc S/o Shafi.
				787/1	Private	Agriculture	2276.8	Bhule singh S/o Harchandi R/o Moonjkheda, Sachin Kumar, Sandip kumar (minors). S/o Nawab Singh U/g Smt Sunita Devi W/o Nawab Singh & Sunita Devi W/o Nawab Singh Baleshwar, Mukesh kumar S/o Brajpal, Sujan S/o Chhoti R/o Village
				788/2	Private	Agriculture	3541.7	Sachin Kumar, Sandip kumar (minors). S/o Nawab Singh U/g Smt Sunita Devi W/o Nawab Singh & Sunita Devi W/o Nawab Singh, Rakesh S/o Brajpal R/o Moonjkheda, Kaluwa, Raees Mohd., Shakeel, Sageer S/o Shafi, Khan Bahadur S/o Abdul Latif R/o kakrala
				789/2	Private	Agriculture	2009.0	Kaluwa, Raees Mohd., Shakeel, Sageer S/o Shafi.
				790/1	Private	Agriculture	1249.8	Sachin Kumar, Sandip Kumar (minors) S/o Nawab Singh U/g Smt Sunita Devi W/o Nawab Singh & Sunita Devi W/o Nawab Singh,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Rakesh S/o Brajpal R/o Moonjkheda, Bhule Singh S/o Harchandi, Moonjkheda, Kaluwa, Raees Mohd., Shakeel, Sageer S/o Shafi
				793/1	Private	Agriculture	942.0	Sachin Kumar, Sandip kumar (minors), S/o Nawab Singh U/g Smt Sunita Devi W/o Nawab Singh & Sunita Devi W/o Nawab Singh Rakesh S/o Brajpal R/o Moonjkheda, Kaluwa, Raees Mohd., Shakeel, Sageer etc S/o Shafi, Khan Bahadur S/o Abdul Latif R/o kakrala
				795/1	Private	Agriculture	1194.1	Bhule singh S/o Harchandi R/o Moonjkheda, Khan bahadur S/o Abdul Latif R/o kakrala khaspur
				796/1	Private	Agriculture	2557.4	Bhule singh S/o Harchandi R/o Moonkheda, Khan Bahadur S/o Abdul Latif R/o kakrala
				797/1	Private	Agriculture	1903.7	Noor Mohd, S/o Khan Bahadur & Abdul Latif S/o Kaluwa, Raees Mohd., Shakeel, Sageer S/o Shafi, Khan Bahadur S/o Abdul Latif R/o kakrala
				798	Private	Agriculture	1897.4	Ausaf Ali, Jafu Ali, Sabir Ali S/o Makkhan, Noor Mohd. S/o Khan Bahadur, R/o kakrala, Meenudin S/o Abdul aziz R/o Village
				801	Private	Agriculture	1115.5	Noor Mohd. S/o Khan Bahadur, Khan Bahadur S/o Abdul Latif R/o kakrala
				802	Private	Agriculture	632.5	Ausaf Ali, Jafu Ali, Shabir Ali S/o Makkhan, Noor Mohd. S/o Khan Bahadur, Res. kakrala khaspur, Meenudin S/o Abdul aziz R/o Village
				803/1	Private	Agriculture	2369.2	Ausaf Ali, Jafar Ali, Shabir Ali S/o Makkhan, Meenudin S/o Abdul aziz R/o Village, Noor Mohd., S/o Khan Bahadur R/o Kakrala Nanhe, Shamsher kalu S/o Nihala, Khan Bahadur S/o Abdul Latif
				813	Private	Agriculture	1567.7	Nanhe, Shamsher, Kalu S/o Nihal Ausaf Ali, Jafu Ali, Shabir Ali S/o Makkhan,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Meenudin S/o Abdul aziz R/o Village, Noor Mohd. S/o Khan Bahadur, Khan Bahadur S/o Abdul Latif R/o kakrala,.
				814	Private	Agriculture	2700.3	Noor Mohd. S/o Khan Bahadur, R/o kakrala, Khan Bahadur S/o Abdul Latif Mohd Nanhe, Shamsheer, Kalu S/o Nihal R/o village
				817/1	Private	Agriculture	2246.9	Noor Mohd. S/o Khan Bahadur, R/o kakrala Mohd. Yamin S/o Abdul Latif R/o Village, Amzad Ali S/o Nasib R/o Noorpur, Ausaf Ali, Jafu Ali, Sabir Ali S/o Makhan, Meenuddin S/o Abdul Aziz.
				819	Private	Agriculture	1285.0	Mohd. Yamin S/o Abdul Latif R/o Kakrala
				821/1	Private	Agriculture	1644.4	Mohd. Yamin S/o Abdul Latif R/o Kakrala, Amzad Ali S/o Nasib R/o Noorpur
				821/2	Private	Agriculture	1106.6	Amzad Ali S/o Nasib R/o Noorpur
				825/1	Private	Agriculture	4064.2	Basir Ali S/o Nasib R/o Noorpur, Chand Mohd. S/o Buddhan, Ibrahim S/o Rasida R/o Village, Amzad Ali S/o Nasib R/o Noorpur, Sajid Husain S/o Yamin R/o. Kakrala
				826	Private	Agriculture	558.4	Chand Mohd. S/o Buddhan Ibrahim S/o Rasida R/o Village
				828	Private	Agriculture	2605.8	Bashir Ali S/o Nasib R/o Noorpur, Chand Mohd. S/o Buddhan, Ibrahim S/o Rasida R/o Village
				829	Private	Agriculture	1704.6	Ibrahim S/o Rasida R/o Village, Amzad Ali S/o Nazir R/o Noorpur, Sajid Husain S/o Yamin R/o Kakrala
				842/1	Private	Agriculture	4810.8	Chand Mohd. S/o Buddhan, Ibrahim S/o Rasida R/o Village, Riyasat Ali S/o Mohd. Yamin R/o Kakrala, Krishna, Murari, Roopkishor, Pawankumar S/o Radheshyam R/o Chandpur
				843	Private	Agriculture	1292.0	Riyasat Ali S/o Mohd. Yamin Shokat Ali S/o Yasin R/o Kakrala, Krishna, Murari, Roopkishor, Pawan kumar S/o Radheshyam R/o Chandpur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				844/2	Private	Agriculture	632	Krishna, Murari, Roopkishor, Pawankumar S/o Radheshyam R/o Chandpur
				845	Private	Agriculture	2645	Chhiddi, Rashid, Tarikat, Haqiqat S/o Shubhrati Chand Mohd., S/o Buddhan R/o Village, Krishna, Murari, Roopkishor, Pawankumar S/o Radheshyam R/o Chandpur
				846	Private	Agriculture	306	Chand Mohd. S/o Buddhan R/o Village
				848/2	Private	Agriculture	127	Chhiddi, Rashid, Tarikat, Haqiqat S/o Shubhrati, Krishna, Murari, Roopkishor, Pawankumar S/o Radheshyam R/o Chandpur, Jafaru S/o Nyaz Mohd. Jafaru Nafaz R/o Village
				877	Private	Agriculture	59	Asghar Singh S/o Kamalsingh R/o Azroda, Tehsin S/o Ashiq R/o Asharfi Begum W/olshak, Sukha S/o Rahimdad, Shamshad S/o Chidda R/o Village
				891	Private	Agriculture	9415	Krishna, Murari, Roopkishor, Pawankumar S/o Radheshyam R/o Chandpur, Shafiya S/o Nyaz Mohd., Jafaru S/o Nafaz Ali R/o Village
				882	Private	Agriculture	595	Brajpal singh, Sushil S/o Kamal singh R/o Azroda, Farookh, Najakat, Abid S/o Sheruddin, Shakura S/o Fakira R/o Village
				851	Private	Agriculture	111	Chhiddi, Rashid, Tarikat, Haqiqat S/o Shubhrati Shafiya S/o Nyaz R/o Village
				852	Private	Agriculture	2142	Asgar S/o Nyaz Ali R/o Datawali, Shafiya S/o Nyaz, Khurshid Ali, Farukh, Najakat Abid S/o Sheruddin R/o Village
				86	Private	Agriculture	1538	Asgar S/o Nyaz Ali R/o Datawali, Brajpal singh S/o Kamalsingh R/o Azroda
				881	Private	Agriculture	1856	Asgar S/o Nyaz Ali R/o Datawali, Khushird, Farukh, Najakat, Abid S/o Sheruddin R/o Village

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				860	Private	Agriculture	1636.2	Asgar S/o Nyaz Ali R/o Datawali, Brajpal singh S/o Kamalsingh R/o Azroda, Khurshid Ali, Farukh, Najakat, Abid S/o Sheruddin R/o Village
				854	Private	Agriculture	21.6	Khurshid Ali, Farukh, Najakat, Abid S/o Sheruddin, Raees khan, Ikramkhan, Gafoor khan S/o Allahmehar R/o Village
				856	Private	Agriculture	634.0	Raees khan, Ikramkhan, Gafoor khan, Jafruddin, Nizamuddz S/o Allahmaher Kamruddin, Salauddin, S/o Ramjani R/o Village
				857	Private	Agriculture	701.3	Raees khan, Ikramkhan, Gafoor khan S/o Allahmehar Raffoo S/o Nazaf Ali, Khurshid Ali, Farukh, Najakata, Abid S/o Shiruddin Farukh Ali, NazakatAli, Abid Ali S/o Sheruddin Kamruddin, Salauddin S/o Ramjani R/o Village
				858	Private	Agriculture	647.4	Raees khan, Ikramkhan, Gafoor khan S/o Allahmaher, Kamrudin, Salauddin, S/o Ramjani Raffoo S/o Nazaf Ali R/o Village
				859	Private	Agriculture	3909.6	Asgar S/o Nyaz Ali R/o Datawali, Brajpal singh S/o Kamalsingh R/o Azroda, Khurshid Ali, Farukh, , Abid , Najakat S/o Sheruddin, Fazruddin S/o Ashiq, Farukh Ali S/o NazakatAli, Malhoo S/o Faqir, Raffoo S/o Nazaf Ali R/o Village
				864	Private	Agriculture	2004.0	Brajpal singh S/o Kamal singh R/o Azroda,
				865	Private	Agriculture	850.2	Malho S/o Faqir R/o Village
				869	Private	Agriculture	2675.9	Fazruddin S/o Ashiq Kamruddin, Salauddin, Jafaruddin S/o Ramjani Raffo S/o Nazaf Ali R/o Village
				868/1	Private	Agriculture	379.5	Fazruddin S/o Ashiq R/o Village
				931/5	Private	Agriculture	474.2	Intajam Ali S/o Ahmad, Rafoo S/o Nazaf Ali, Kamruddin, Salauddin, Jafaruddin etc S/o Ramjani, Neenu S/o Inayat, Shafiya S/o Chhanga, Subrati

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								S/o Nanuwa R/o Village
				931/6	Private	Agriculture	2530.0	Fazruddin S/o Ashiq Raffoo S/o Nazaf Ali, Nazar Mohd., Idris, Aas Mohd., Umar Mohd., Jaffruddin S/o Nazaf Ali R/o Village
				931/7	Private	Agriculture	11318.0	Fazruddin S/o Ashiq, Raffoo S/o Nazaf Ali, Nazar Mohd., Idris Aas Mohd., Umar Mohd., Jaffruddin S/o Nazaf Ali R/o Village
				931/8	Private	Agriculture	537.9	Nazar Mohd., Idris, Aas Mohd., Umar Mohd., Jaffruddin S/o Nazaf Ali R/o Village
				931/9	Private	Agriculture	2530.0	Neenu S/o Inayat R/o Village,
				931/10	Private	Agriculture	56.0	Subrati S/o Nanuwa, Neenu S/o Inayat, Fatta S/o Vare R/o Village
				933/1	Private	Agriculture	4210.0	Nazar Mohd., Idris, Aas Mohd., Umar Mohd., Jaffruddin S/o Nazaf Ali Fatta S/o Vare R/o Village
				933/2	Private	Agriculture	4570.4	Neenu S/o Inayat, Fatta S/o Vare R/o Village, Brajpal singh, Sunil S/o Kamalsingh R/o Azroda
				932/1	Private	Agriculture	81.4	Nazar Mohd., Idris, Aas Mohd., Umar Mohd., Jaffruddin S/o Nazaf Ali R/o Village
				937	Private	Agriculture	2288.6	Neenu S/o Inayat R/o Village, Brajpal singh, Sunil S/o Kamal singh R/o Azroda
				939/10	Private	Agriculture	7593.0	Neenu S/o Inayat Subrati S/o Nanuwa, Pappu S/o Vahid R/o Village
				939/11	Private	Agriculture	1530.3	Neenu S/o Inayat R/o Village, Brajpal singh, Sunil S/o Kamal singh R/o Azroda, Subrati S/o Nanuwa R/o Village
			(5) Vela Khurd	172	Private	Agriculture	7601.4	Ramchandra S/o Antram S/o Chhajwa. Smt. Mishri w/o Late. Mehar Chand. Moharpal, Mahipal, Jaichand S/o Smt. Dheero d/o Shivalai

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								S/o Munshi. Sukhpal, Sukhviri, Raghuvir S/o Smt. Bhatto w/o Late. Diwan S/o Khachedu. Smt. Nattho d/o Madoa S/o Heera. Prahlad S/o Sooka S/o Lalsingh. Prithvi S/o Narayansingh S/o Buddha. Chhotelal S/o Dayaram S/o Buddha. Smt. Balwanti w/o Late. Khemchand. Bodley, Kishanlal S/o Kehar S/o Khushiya. Gheesa S/o Khushiya S/o Fattah. Smt. Surjo w/o Late. Girraj Singh S/o Smt. Gangadei, Jaldeji, Jaidei d/o Kewal S/o Khushiya. Omprakash, Hariprakash, Surender Kumar, Deshpal, Vijender S/o Smt. Jaipalee, Bala d/o Kewal. Girichand S/o Malhu S/o Harphool. Omprakash S/o Bodhley S/o Hemraj. Ramkishan, Dayaram, Pitamsingh S/o Smt. Kishanvati, Rajvati d/o Smt. Kashmiri w/o Late. Hemraj. Smt. Attaro. Karansingh, Balraj, Surender, Vijender S/o Ratanlal S/o Govindsahay. Ratanlal @ Ratansingh S/o Govindsahay. Ratiram, Jaggi S/o Govindsahay S/o Harphool. Smt. Kripa, Santra d/o Ramvati w/o Late. Dalle S/o Phusan. Sunny S/o Phusan S/o Kude. Lakhani S/o Risalsingh S/o Kude. Girdhar S/o Jahangir S/o Sukkhee. Smt. Hetu w/o Late. Dharamveer. Veersingh, Virender, Vijaypal S/o Smt. Dharamvati, Jaivati, Jagan, Shimla d/o Harlee S/o Jorasingh. Shivkaran S/o Shaadi S/o Roshan. Likhiram S/o Bhajanlal S/o Veegha. Antram S/o Hemraj S/o Harphool. Veersingh S/o Mansingh S/o Sarwaliya. Chetram S/o Shival S/o Boonti r/o Deri Gujran Dankaur.
				173	Private	Agriculture	34102.0	
				169	Private	Agriculture	226.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>Sarjit Kaur w/o Harpreet Singh S/o Harnaam Pyarelal S/o Jaganlal. Jaggannath Harprashad S/o Jaganlal. Smt. Muthri Noyadar S/o Ramdayal. Mohand, Durgaprasad, Mohand S/o Kirori S/o Mohand, Dankaur. Mohand, Ratan Singh</p>
								<p>Smt. Sohanpal, Visram Mohd S/o Moharsingh, Mohd S/o Madya S/o Mohd, Girraj, Nepal, Mohd, Omprakash, Mohd, Surender Mohd, Deshpal, Vijender Mohd, Smt Jaipalee, Bala d/o Mohd, Dalipo w/o Late. Harlal Mohd, Kewal. Gheesa, Smt. Mohd, Bodey, Kishanlal, Mohd, Likhiram, Mohd, Mohand, Meharchand, Mohd, Jairam, Natthi, Mohd, Prithvi, Prahlad, Mohd, Ratanlal, Rati, Mohd, Bodey, Karansingh, Mohd, Surender, Vijender. Mohd, Surjo, Girrajsingh, Mohd, Jaidei, Smt. Mohd, Dheeraj. Girichand Mohd, Mohd.</p>

[DP/PR/EPExp/2005/LA]

[ABHAKAR, Dy. Secy.]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2007

का.आ. 350(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना संख्या का.आ. 1307(अ), तारीख 14 अगस्त, 2006 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 14 अगस्त, 2006 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में - (I) तहसील “(1) दादरी” के सामने,-

(क) गाँव “(7) बिसाहड़ा” के सामने, -

(i) सर्वेक्षण संख्या “676” के सामने, .

(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी;

(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/बंजर” रखी जाएगी ;

(ii) सर्वेक्षण संख्या “685” के सामने, .

(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “सरकारी” के स्थान पर प्रविष्टि “सार्वजनिक” रखी जाएगी ;

(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “नाला” के स्थान पर प्रविष्टि “रास्ता” रखी जाएगी ;

(iii) सर्वेक्षण संख्या “706” के सामने, .

(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी;

(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/बंजर” रखी जाएगी ;

(iv) सर्वेक्षण संख्या “708” के सामने, .

(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “सार्वजनिक” रखी जाएगी;

(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “बंजर” रखी जाएगी ;

(v) सर्वेक्षण संख्या “724” के सामने, .

(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी;

(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/बंजर” रखी जाएगी ;

(vi) सर्वेक्षण संख्या “729” के सामने, .

(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “सार्वजनिक” रखी जाएगी;

(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “बंजर” रखी जाएगी ;

(vii) सर्वेक्षण संख्या “731” के सामने, .

(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी;

(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/बंजर” रखी जाएगी ;

(viii) सर्वेक्षण संख्या “1079” के सामने, स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “सार्वजनिक” रखी जाएगी ;

(ix) सर्वेक्षण संख्या “1091” के सामने, स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “नाला” के स्थान पर प्रविष्टि “रास्ता” रखी जाएगी ;

(x) सर्वेक्षण संख्या “1098/1” के सामने, .

(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी;

(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/बंजर” रखी जाएगी ;

- [illegible]

- (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “बंजर भूमि” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/बंजर” रखी जाएगी ;
- (xxviii) सर्वेक्षण संख्या “1377” के सामने,
(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “उशर” के स्थान पर प्रविष्टि “बंजर” रखी जाएगी ;
- (xxix) सर्वेक्षण संख्या “1455” के सामने,
(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “बंजर” रखी जाएगी ;
- (xxx) सर्वेक्षण संख्या “1463” के सामने,
(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “बंजर भूमि” के स्थान पर प्रविष्टि “बंजर” रखी जाएगी ;
- (xxxi) सर्वेक्षण संख्या “1471” के सामने,
(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “उशर” के स्थान पर प्रविष्टि “बंजर” रखी जाएगी ”

(ख) गाँव “ (13)खटाना धीरखेड़ा ” के सामने , -

- (i) स्तम्भ (5) में, सर्वेक्षण संख्या “620/1” और स्तम्भ 6, 7 और 8 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित सर्वेक्षण संख्या और प्रविष्टियाँ क्रमशः अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

5	6	7	8
“525	निजी	खेती	200.0
620/3	निजी	खेती	3739.3
623	निजी	खेती	200.0” ;

- (ii) सर्वेक्षण संख्या “519/1” के सामने,
(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “तालाब” रखी जाएगी ;
- (iii) सर्वेक्षण संख्या “519/2” के सामने,
(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “तालाब” रखी जाएगी ;
- (iv) सर्वेक्षण संख्या “556” के सामने,
(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “रास्ता” रखी जाएगी ;

(II) तहसील “ (2) गौतमबुद्ध नगर” के सामने , -

(क) गाँव “ (9) जगनपुर अफजलपुर” के सामने,

- (i) स्तम्भ (5) में, सर्वेक्षण संख्या “843” और स्तम्भ 6, 7 और 8 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित सर्वेक्षण संख्या और प्रविष्टियाँ क्रमशः अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

5	6	7	8
“279/1	निजी/सार्वजनिक	खेती /रास्ता	9405.0
844	निजी/सार्वजनिक	खेती /रास्ता	2951.0” ;

- (ii) सर्वेक्षण संख्या “279/2” के सामने,
(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/बंजर/रास्ता” रखी जाएगी ;

- [illegible]

- [illegible]

- (xxviii) सर्वेक्षण संख्या “958” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/बंजर” रखी जाएगी;
- (xxix) सर्वेक्षण संख्या “989” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/बंजर” रखी जाएगी;
- (xxx) सर्वेक्षण संख्या “992” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/रास्ता/बंजर” रखी जाएगी;
- (xxxi) सर्वेक्षण संख्या “993” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/रास्ता” रखी जाएगी;
- (xxxii) सर्वेक्षण संख्या “994” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/रास्ता” रखी जाएगी;
- (xxxiii) सर्वेक्षण संख्या “1031” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/नवीन परती” रखी जाएगी;
- (ख) गाँव “ (12) वेला कलौं” के सामने , -
- (i) सर्वेक्षण संख्या “37” के सामने, स्तम्भ (8) में प्रविष्टि “4629” के स्थान पर प्रविष्टि “6070.0” रखी जाएगी ;
- (ii) सर्वेक्षण संख्या “38” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सरकारी” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/निष्क्रान्त सम्पत्ति” रखी जाएगी;
 (ग) स्तम्भ (8) में प्रविष्टि “3715.4” के स्थान पर प्रविष्टि “22800.0” रखी जाएगी;
- (ग) गाँव “ (13) गुनपुरा” के सामने , -
- (i) सर्वेक्षण संख्या “17” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/रास्ता” रखी जाएगी;
- (ii) सर्वेक्षण संख्या “18” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/नाली” रखी जाएगी;
- (iii) सर्वेक्षण संख्या “23” के सामने, स्तम्भ (8) में प्रविष्टि “7.2” के स्थान पर प्रविष्टि “764.9” रखी जाएगी;
- (iv) स्तम्भ (5) में, सर्वेक्षण संख्या “26” और स्तम्भ 6, 7 और 8 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित सर्वेक्षण संख्या और प्रविष्टियां क्रमशः अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

5	6	7	8
“27/1	निजी /सार्वजनिक	खेती /रास्ता	3758.8

5	6	7	8
28/1	निजी /सार्वजनिक	खेती /रास्ता	1592.6
29/1	निजी /सार्वजनिक	खेती /रास्ता	354.8
89/1	निजी	खेती	1104.4
91/1	सार्वजनिक	बचत	96.1
95/2	सार्वजनिक	रास्ता	569.3
96/1	सार्वजनिक	रास्ता	2620.7
108/1	सार्वजनिक	बांध	2376.2” ;

- (v) सर्वेक्षण संख्या “40” के सामने, स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “नाली” के स्थान पर प्रविष्टि “नाला” रखी जाएगी;
- (vi) सर्वेक्षण संख्या “70” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/रास्ता/नाली” रखी जाएगी;
- (vii) सर्वेक्षण संख्या “88” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “ खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/रास्ता/नाली” रखी जाएगी;
- (viii) सर्वेक्षण संख्या “97” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी/सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “ खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/बंजर” रखी जाएगी;
- (ix) सर्वेक्षण संख्या “89/2” के सामने, स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “रास्ता” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती” रखी जाएगी;
- (x) सर्वेक्षण संख्या “91/2” के सामने, स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “बचत” रखी जाएगी;
- (xi) सर्वेक्षण संख्या “94/2” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “सार्वजनिक” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “ रास्ता” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती” रखी जाएगी;
- (xii) सर्वेक्षण संख्या “94” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “सार्वजनिक” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “ रास्ता” रखी जाएगी;
- (xiii) सर्वेक्षण संख्या “96/2” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “सार्वजनिक” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “ रास्ता” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती” रखी जाएगी;
- (xiv) सर्वेक्षण संख्या “99” के सामने,
 (क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “ निजी/सार्वजनिक ” रखी जाएगी ;
 (ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “ खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती/रास्ता/नाली” रखी जाएगी;

(xv) सर्वेक्षण संख्या “108/2” के सामने,

(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “सावजनिक” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी” रखी जाएगी;

(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “सावजनिक” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी” रखी जाएगी;

(घ) गाँव “(14) फतेहपुर अट्टा” के सामने,

(i) सर्वेक्षण संख्या “734/1” के सामने, स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “1391.4” रखी जाएगी ;

(ii) सर्वेक्षण संख्या “778/1” के सामने, स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “1517.9” रखी जाएगी ;

(iii) सर्वेक्षण संख्या “775/2” के सामने,

(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “सावजनिक” रखी जाएगी ;

(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “बाग़” रखी जाएगी;

(iv) सर्वेक्षण संख्या “862” के सामने,

(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी बाग़” रखी जाएगी ;

(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती बाग़” रखी जाएगी;

(v) सर्वेक्षण संख्या “844/1” के सामने,

(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी बाग़” रखी जाएगी ;

(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती बाग़” रखी जाएगी;

(vi) सर्वेक्षण संख्या “693/1” के सामने,

(क) स्तम्भ (6) में प्रविष्टि “निजी” के स्थान पर प्रविष्टि “निजी बाग़” रखी जाएगी ;

(ख) स्तम्भ (7) में प्रविष्टि “खेती” के स्थान पर प्रविष्टि “खेती बाग़” रखी जाएगी;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उपर्युक्त विनियम की धारा 13(1) के अधीन मूल अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए आवेदन पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर जमा कर सकेगा।

[फा. सं. भारागुड/2005/भू.अ.]

प्रभाकर, उप सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ. 1307(अ), तारीख 14 अगस्त, 2006 द्वारा भारत के राजपूताना, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 14 अगस्त, 2006 में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2007

S.O. 350(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.1307 (E), dated the 14 August, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14 August, 2006, namely: -

In the schedule to the said notification, (I) against tehsil “(1) Dadri”,-

- (a) **against village “(7) Bisahada”,-**
- (i) **against Survey number “676”,-**
 - (A) in column (6), for the entry “Private”, the entry “Private/Public” shall be substituted;
 - (B) in column (7), for the entry “Agriculture”, the entry “Agriculture/Barren” shall be substituted;
- (ii) **against Survey number “685”,-**
 - (A) in column (6), for the entry “Govt”, the entry “Public” shall be substituted;
 - (B) in column (7), for the entry “Nala”, the entry “Path” shall be substituted;
- (iii) **against Survey number “706”,-**
 - (A) in column (6), for the entry “Private”, the entry “Private/Public” shall be substituted;
 - (B) in column (7), for the entry “Agriculture”, the entry “Agriculture/Barren” shall be substituted;
- (iv) **against Survey number “708”,-**
 - (A) in column (6), for the entry “Private”, the entry “Public” shall be substituted;
 - (B) in column (7), for the entry “Agriculture”, the entry “Barren” shall be substituted;
- (v) **against Survey number “724”,-**
 - (A) in column (6), for the entry “Private”, the entry “Private/Public” shall be substituted;
 - (B) in column (7), for the entry “Agriculture”, the entry “Agriculture/Barren” shall be substituted;
- (vi) **against Survey number “729”,-**
 - (A) in column (6), for the entry “Private”, the entry “Public” shall be substituted;
 - (B) in column (7), for the entry “Agriculture”, the entry “Barren” shall be substituted;
- (vii) **against Survey number “731”,-**
 - (A) in column (6), for the entry “Private”, the entry “Private/Public” shall be substituted;
 - (B) in column (7), for the entry “Agriculture”, the entry “Agriculture/Barren” shall be substituted;
- (viii) **against Survey number “1079”, in column (6), for the entry “Private”, the entry “Public” shall be substituted;**
- (ix) **against Survey number “1091”, in column (7), for the entry “Nala”, the entry “Path” shall be substituted;**
- (x) **against Survey number “1098/1”,-**
 - (A) in column (6), for the entry “Private”, the entry “Private/Public” shall be substituted;
 - (B) in column (7), for the entry “Agriculture”, the entry “Agriculture/Barren” shall be substituted;
- (xi) **against Survey number “1098/2”, in column (6), for the entry “Private”, the entry “Public” shall be substituted;**

- (xii) against Survey number "1104/1",
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agriculture", the entry "Barren" shall be substituted;
- (xiii) against Survey number "1104/2",
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agriculture", the entry "Barren" shall be substituted;
- (xiv) against Survey number "1104/3", in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
- (xv) against Survey number "1104/4", in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
- (xvi) against Survey number "1107", in column (7), for the entry "Ushar", the entry "Barren" shall be substituted;
- (xvii) against Survey number "1108/1",
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agriculture", the entry "Barren" shall be substituted;
- (xviii) against Survey number "1108/2",
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agriculture", the entry "Barren" shall be substituted;
- (xix) against Survey number "1210",
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agriculture", the entry "Pond" shall be substituted;
- (xx) against Survey number "1214",
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Barren Land", the entry "Agriculture/Barren" shall be substituted;
- (xxi) against Survey number "1215", in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
- (xxii) against Survey number "1247/1", in column (7), for the entry "Nala", the entry "Rajwaha" shall be substituted;
- (xxiii) against Survey number "1315", in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
- (xxiv) against Survey number "1347", in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
- (xxv) against Survey number "1356",
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Ushar", the entry "Barren" shall be substituted;
- (xxvi) against Survey number "1374/1",
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agriculture", the entry "Agriculture/Barren" shall be substituted;
- (xxvii) against Survey number "1375",
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Barren Land", the entry "Agriculture/Barren" shall be substituted;
- (xxviii) against Survey number "1377",
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;

- (xxix) (B) in column (7), for the entry "Ushar", the entry "Barren" shall be substituted;
against Survey number "1455",-
- (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agriculture", the entry "Barren" shall be substituted;
(xxx) against Survey number "1463",-
- (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Barren Land", the entry "Barren" shall be substituted;
(xxxi) against Survey number "1471",-
- (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Ushar", the entry "Barren" shall be substituted;

(b) against village "(13) Khatana Dheerkheda -",

- (i) after Survey number "620/1" in column (5) and the entries relating thereto in columns 6, 7 and 8, the following Survey numbers and entries shall respectively be inserted, namely:-

5	6	7	8
"525	Private	Agriculture	200.0
620/3	Private	Agriculture	3739.3
623	Private	Agriculture	200.0";

- (ii) against Survey number "519/1",-
- (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agriculture", the entry "Pond" shall be substituted;
(iii) against Survey number "519/2",-
- (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agriculture", the entry "Pond" shall be substituted;
(iv) against Survey number "556",-
- (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agriculture", the entry "Path" shall be substituted;

(II) against tehsil "(2) Gautam Budh Nagar",-

- (a) against village "(9) Jaganpur Afzalpur, ",

- (i) after Survey number "843" in column (5) and the entries relating thereto in columns 6, 7 and 8, the following Survey numbers and entries shall respectively be inserted, namely:

5	6	7	8
"279/1	Private/Public	Agriculture/Path	9405.0
844	Private/Public	Agriculture/Path	2951.0."

- (ii) against Survey number "279/2",-
- (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Barren/Path" shall be substituted;
(iii) against Survey number "279/3",-
- (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;

- (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Barren/Path" shall be substituted;
- (iv) against Survey number "840",-
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Path" shall be substituted;
- (v) against Survey number "842/2",-
(A) in column (6), for the entry "Public", the entry "Private/Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Nala", the entry "Agriculture/Nala/Path" shall be substituted;
- (vi) against Survey number "843",-
(A) in column (6), for the entry "Govt", the entry "Private/Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Purani Parti", the entry "Agriculture/Path" shall be substituted;
- (vii) against Survey number "832",-
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Path" shall be substituted;
- (viii) against Survey number "839",-
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Path" shall be substituted;
- (ix) against Survey number "285",-
(A) in column (6), for the entry "Govt", the entry "Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Nala", the entry "Bachat" shall be substituted;
- (x) against Survey number "814",-
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Bachat" shall be substituted;
- (xi) against Survey number "815",-
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Path" shall be substituted;
- (xii) against Survey number "798",-
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Bachat" shall be substituted;
- (xiii) against Survey number "927",-
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Bachat" shall be substituted;
- (xiv) against Survey number "928",-
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Bachat" shall be substituted;
- (xv) against Survey number "929",-
(A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
(B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Bachat" shall be substituted;

- (xvi) against Survey number "936",-
 (A) in column (6), for the entry "Govt", the entry "Private/Public" shall be substituted;
 (B) in column (7), for the entry "Purani Parti", the entry "Agriculture/PuraniParti/Path" shall be substituted;
- (xvii) against Survey number "937",-
 (A) in column (6), for the entry "Govt", the entry "Private/Public" shall be substituted;
 (B) in column (7), for the entry "Purani Parti", the entry "Agriculture/PuraniParti/Bachat" shall be substituted;
- (xviii) against Survey number "938",-
 (A) in column (6), for the entry "Govt", the entry "Private/Public" shall be substituted;
 (B) in column (7), for the entry "Purani Parti", the entry "Agriculture/PuraniParti/Bachat" shall be substituted;
- (xix) against Survey number "941",-
 (A) in column (6), for the entry "Govt", the entry "Private/Public" shall be substituted;
 (B) in column (7), for the entry "Purani Parti", the entry "Agriculture/PuraniParti/Path" shall be substituted;
- (xx) against Survey number "942",-
 (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
 (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Path" shall be substituted;
- (xxi) against Survey number "946",-
 (A) in column (6), for the entry "Govt", the entry "Private/Public" shall be substituted;
 (B) in column (7), for the entry "Purani Parti", the entry "Agriculture/PuraniParti" shall be substituted;
- (xxii) against Survey number "947",-
 (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
 (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Bachat" shall be substituted;
- (xxiii) against Survey number "948",-
 (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
 (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Bachat" shall be substituted;
- (xxiv) against Survey number "954/1",-
 (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
 (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Bachat" shall be substituted;
- (xxv) against Survey number "954/2",-
 (A) in column (6), for the entry "Govt", the entry "Private/Public" shall be substituted;
 (B) in column (7), for the entry "Purani Parti", the entry "Agriculture/PuraniParti" shall be substituted;
- (xxvi) against Survey number "956",-
 (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
 (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Bachat" shall be substituted;
- (xxvii) against Survey number "957",-
 (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;

- (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Bachat" shall be substituted;
- (xxviii) against Survey number "958",-
- (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Bachat" shall be substituted;
- (xxix) against Survey number "989",-
- (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Barren" shall be substituted;
- (xxx) against Survey number "992",-
- (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Path/Barren" shall be substituted;
- (xxxi) against Survey number "993",-
- (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Path" shall be substituted;
- (xxxii) against Survey number "994",-
- (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Path" shall be substituted;
- (xxxiii) against Survey number "1031",-
- (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Navin Parti" shall be substituted;
- (b) against village " (12) Vela Kalan "-
- (i) against Survey number 37, in column (8), for the entry "4629", the entry "6070.0" shall be substituted;
- (ii) against Survey number "38",-
- (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Govt" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Agriculture", the entry "Agriculture/Evacuee Property" shall be substituted;
- (C) in column (8), for the entry "3715.4", the entry "22800.0" shall be substituted;
- (c) against village "(13) Gunpura",-
- (i) against Survey number "17",-
- (A) in column (6), for the entry "Private ", the entry "Private/Public" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Path" shall be substituted;
- (ii) against Survey number "18",-
- (A) in column (6), for the entry "Private ", the entry "Private/Public" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Nali" shall be substituted;

- (iii) against Survey number 23, in column (8), for the entry "7.2", the entry "764.9" shall be substituted;
- (iv) after Survey number "26" in column (5) and the entries relating thereto in columns 6, 7 and 8, the following Survey numbers and entries shall respectively be inserted, namely:

5	6	7	8
"27/1	Private/Public	Agriculture/Path	3758.8
28/1	Private/Public	Agriculture/Path	1592.6
29/1	Private/Public	Agriculture/Path	354.8
89/1	Private	Agriculture	1104.4
91/1	Public	Bachat	96.1
95/2	Public	Path	569.3
96/1	Public	Path	2620.7
108/1	Public	Bund	2376.2";

- (v) against Survey number "40", in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Nala" shall be substituted;
- (vi) against Survey number "70",-
- (A) in column (6), for the entry "Private ", the entry "Private/Public" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Path/Nali" shall be substituted;
- (vii) against Survey number "88",-
- (A) in column (6), for the entry "Private ", the entry "Private/Public" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Path/Nali" shall be substituted;
- (viii) against Survey number "90", in column (7), for the entry "Path", the entry "Agriculture" shall be substituted;
- (ix) against Survey number "97",-
- (A) in column (6), for the entry "Private ", the entry "Private/Public" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Barren" shall be substituted;
- (x) against Survey number "91/2", in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Bachat" shall be substituted;
- (xi) against Survey number "94/2", in column (6), for the entry "Public ", the entry "Private" shall be substituted;
- (xii) against Survey number "94", in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
- (xiii) against Survey number "96/2", in column (6), for the entry "Public ", the entry "Private" shall be substituted;
- (xiv) against Survey number "99",-
- (A) in column (6), for the entry "Private ", the entry "Private/Public" shall be substituted;
- (B) in column (7), for the entry "Agricultural", the entry "Agriculture/Path/Nali" shall be substituted;

- (xv) against Survey number "107", in column (7), for the entry "Path", the entry "Agriculture" shall be substituted;
- (xvi) against Survey number "108/2", in column (6), for the entry "Public", the entry "Private" shall be substituted;
- (d) **against village "(14) Fatehpur Atta"-**
 - (i) against Survey number "734/1", in column (8), for the entry "1123.5", the entry "1391.4" shall be substituted;
 - (ii) against Survey number "778/1", in column (8), for the entry "1413.8", the entry "1517.9" shall be substituted;
 - (iii) against Survey number "775/2", -
 - (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Public" shall be substituted;
 - (B) in column (7), for the entry "Agriculture", the entry "Bund" shall be substituted;
 - (iv) against Survey number "862", -
 - (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
 - (B) in column (7), for the entry "Agriculture", the entry "Agriculture/Bachat" shall be substituted;
 - (v) against Survey number "844/1", -
 - (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
 - (B) in column (7), for the entry "Agriculture", the entry "Agriculture/Bund" shall be substituted;
 - (vi) against Survey number "693/1", -
 - (A) in column (6), for the entry "Private", the entry "Private/Public" shall be substituted;
 - (B) in column (7), for the entry "Agriculture", the entry "Agriculture/Bachat" shall be substituted;

Any person interested in the land mentioned in this notification may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the official Gazette, object to the use of such land for the purpose mentioned in the principal notification under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

[F.No. NHAI/DPR/EP Exp/2005/LA]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note : The principal notification was published *vide* S.O. 1307(E), dated the 14th August, 2006, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th August, 2006.